



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2005 (कार्तिक 21, 1927)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2005 (KARTIKA 21, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2005

नेवी ब्राँच

नौसेना मुख्यालय

सं. 533, दिनांक 19 अक्टूबर 2005—राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा की श्रीमती निर्मल भोजवानी, रशियन स्टेनो-1 को यू.पी.एस.सी. की संस्तुति के आधार पर सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में दिनांक 02.08.2005 से वेतनमान रु. 7,500-250-12,000 में नियुक्त करते हैं।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा (एम एस)

सं. 534, दिनांक 21 अक्टूबर 2005—राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 सितम्बर, 2005 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

अवैतनिक थल सेना एडीसी (इंफैंट्री)

आई सी-16900 ले. जनरल अरविन्द शर्मा, अ वि से मै, वि से मै

एस. डी. बांगा

अवर सचिव

नेवी ब्राँच

नौसेना मुख्यालय

सं. 535, दिनांक 19 अक्टूबर 2005—राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 09.08.2005 से 08.02.2006 की अवधि तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक उप निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- के रूप में नियुक्ति को बढ़ाते हैं:—

(क) श्रीमती नीना मिश्रा

(ख) श्री ए के सिंह

(ग) श्री हरि किशन

(घ) श्री आशुतोष सिन्हा

(ङ) श्रीमती ललिता कुमार

(च) श्री ए के शर्मा

(छ) श्री डी सी त्यागी

(ज) श्री ए के आहुजा

(झ) श्री डी जे प्रसाद

(ट) श्री आर के सहरावत

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की जाती है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारक आने पर रद्द की जा सकती है।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सेना शाखा

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 536, दिनांक 20 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नायब सूबेदार (एस के टी)

हवलदार आर इलुमालाई (6384735डब्ल्यू अब जेसी-663363डब्ल्यू), 01 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 19 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सम्बासिक्म पिल्लै (6385001एफ अब जेसी-663364वाई), 01 फरवरी 2005

हवलदार हीरा लाल जाट (6384212एक्स अब जेसी-663365एफ), 20 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सजिथ ए (6385006ए अब जेसी-663366के), 25 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जगदीश प्रसाद सिंह (6385050के अब जेसी-663367एम), 11 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मदन मोहन मंडल (6385116पी अब जेसी-663368पी), 24 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सजीवन गिल्ले जे (6385378एल अब जेसी-663369एक्स), 14 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शाजि लाल के एस (6385477एल अब जेसी-663370एम), 12 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दियाटे भास्कर संभाजी (6382701के अब जेसी-663371पी), 07 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम बहल (6384388एच अब जेसी-663372एक्स), 13 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार काना राम (6385263एक्स अब जेसी-663373ए), 02 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सोभा राजन के बी (6384996के अब जेसी-663374एच), 02 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुधाकरन पी (6384582एक्स अब जेसी-663375एल), 01 मई 2005

हवलदार धर्मवीर (6383767एम अब जेसी-663376एन), 03 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार निलानन्दा झा (6382739एन अब जेसी-663377डब्ल्यू), 01 मई 2005

हवलदार राजावेल एस (6383691एक्स अब जेसी-663378वाई), 26 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पाटिल रत्नाकान्त दत्तारया (6385416डब्ल्यू अब जेसी-663379एफ), 01 मई 2005

हवलदार नलिनी कान्त मिश्रा (6383203के अब जेसी-663380डब्ल्यू), 06 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार टी श्री रामा चन्द्रा मुर्ति (6384244ए अब जेसी-663381वाई), 21 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सन्तोष वरगिस (6383977एम अब जेसी-663382एफ), 02 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सिव प्रसादन बी (6384999एक्स अब जेसी-663383के), 26 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश चन्द्रा (6384296डब्ल्यू अब जेसी-663384एम), 19 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मुजुवर जानु (6384094पी अब जेसी-663385पी), 20 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज किशोर सिंह (63874836डब्ल्यू अब जेसी-663386एक्स), 25 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जगदीश (6385327एक्स अब जेसी-663387ए), 01 जून 2005

हवलदार राजेन्द्र यादव (6380952पी अब जेसी-663388एच), 01 जून 2005

हवलदार मनोहरन पिल्ले बी (6385388पी अब जेसी-663405एक्स), 17 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार ईश्वर प्रसाद यादव (6385214पी अब जेसी-663406ए), 25 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार काशमीर सिंह (6384725एम अब जेसी-663407एच), 23 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार आनन्द चन्द्रा पन्डा (6382204एम अब जेसी-663408एल), 29 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ससिधरन पिल्ले आर (6384998पी अब जेसी-663409एन), 18 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार सिंह (6383889डब्ल्यू अब जेसी-663410एच), 13 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अरूण कुमार दुबे (6384385पी अब जेसी-663411एल), 17 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुदामा प्रसाद प्रजापति (6385475एच अब जेसी-663412एन), 01 जुलाई 2005

हवलदार जय किशन सिंह (6384281एन अब जेसी-663413डब्ल्यू), 21 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुनील कुमार (6384151एल अब जेसी-663414वाई), 07 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गोपा कुमार आर (6384974वाई अब जेसी-663415एफ), 05 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रवीन्द्रन पी (6384728ए अब जेसी-663416के), 01 जुलाई 2005

हवलदार नानुबरोलु श्रीनिवास राव (6384099एन अब जेसी-663417एम), 05 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र (6383478एक्स अब जेसी-663418पी), 01 जुलाई 2005

हवलदार अरूण सिंह (6384404पी अब जेसी-663419एक्स), 05 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार थोमस के ए (6381201ए अब जेसी-663420एम), 07 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश यादव (6385289एम अब जेसी-663421पी),  
15 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पवार रामा चन्द्रा निवरुत्ती (6383524एफ अब जेसी-  
663521ए), 06 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अजिथा कुमार आर (6383960वाई अब जेसी-663522एच),  
13 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राघव सिंह (6380155के अब जेसी-663523एल), 01  
अगस्त 2005

हवलदार बाबू लाल (6383315के अब जेसी-663524एन), 01 अगस्त  
2005

हवलदार काशिरामागर सुभाष नानासाहेब (6384168वाई अब  
जेसी-663525डब्ल्यू), 08 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार लिपिक (जी डी)

नायब सूबेदार प्रेम नारायण सिंह (जेसी-641526वाई), 07 फरवरी  
2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रतन लाल (जेसी-641539डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-641542डब्ल्यू), 01 मार्च  
2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-641658एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार कुन्ही कन्नन सी के (जेसी-641786के), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार सतीश चन्द्र गौर (जेसी-641659पी), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार देवन चन्द्र साहू (जेसी-641662पी), 01 मई 2005

नायब सूबेदार चन्द गोविन्द सिंह (जेसी-641660के), 01 मई 2005

नायब सूबेदार रेवत सिंह राणा (जेसी-641661एन), 02 मई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरीश चन्द्र (जेसी-641537एल), 01 मई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रेमाकुमारन थम्मी डी (जेसी-641538एन), 01 मई  
2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्याम नारायण झा (जेसी-641663एक्स), 17 मई  
2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार समे सिंह (जेसी-641664ए), 16 जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मनीश प्रधान (जेसी-641667एन), 15 जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ब्रिज भान प्रसाद यादव (जेसी-641668डब्ल्यू), 21  
जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कुलजीत सिंह (जेसी-642012एन), 14 जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-641669वाई), 13 जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लालमन प्रसाद (जेसी-641671डब्ल्यू), 11 जुलाई  
2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार पट्टनिया (जेसी-641787एम), 07 जुलाई  
2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
21 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कर्म सिंह जसरोटिया (जेसी-641670एन), 21 जुलाई  
2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेश चन्द सैनी (जेसी-641672एक्स), 20 जुलाई  
2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उन्नीकृष्णन पालादान (जेसी-641788पी), 21 जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उमा शंकर प्रसाद (जेसी-641673एफ), 01 अगस्त 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राकेश कुमार सिंह (जेसी-641674के), 26 जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुधाकर्ण एन वी (जेसी-641790एम), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार बलविन्द्र पाल सिंह (जेसी-641792वाई), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार रामा नन्द (जेसी-642013डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

#### सूबेदार मेजर एम टी

सूबेदार सूर्या कुमार तिवारी (जेसी-661046डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

सूबेदार हेम राज ठाकुर (जेसी-661059एन), 01 मार्च 2005

सूबेदार बसप्पा हट्टी (जेसी-661088एच), 09 मार्च 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-660982वाई), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार राधे लाल चन्द्रा (जेसी-661060एच), 02 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-661182एम), 09 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार श्याम बिहारी तिवारी (जेसी-661183पी), 02 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-661209वाई), 17 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार श्री पत्नी राम (जेसी-661131वाई), 01 जुलाई 2005

#### सूबेदार मेजर पी ए

सूबेदार वेन्कीयचलम पी (जेसी-640267पी), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार सुदर्शन कुमार (जेसी-640506पी), 01 जुलाई 2005

#### सूबेदार मेजर जी डी एस डी

सूबेदार मथैस ए (जेसी-640596एल), 01 फरवरी 2005

सूबेदार ससीद्रन कलान्तवीता (जेसी-640605एफ), 01 मार्च 2005

सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-640603डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

सूबेदार राम नागर यादव (जेसी-640765एफ), 01 मार्च 2005

सूबेदार जगदेव सिंह दहवाल (जेसी-640877एफ), 01 मार्च 2005

सूबेदार कपिल देव सिंह यादव (जेसी-640768पी), 01 मार्च 2005

सूबेदार जी अगस्तीन (जेसी-640604वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार विनोद कुमार अवस्ती (जेसी-640831वाई), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार वासुदेवा के के (जेसी-640830डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार राम सजीवन मिश्रा (जेसी-640823ए), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार केदार सिंह (जेसी-640824एच), 02 अप्रैल 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार इशियाक अली खान (जेसी-640885ए), 01 मई 2005

सूबेदार राम लखन जयसवाल (जेसी-640890एल), 01 जुलाई 2005

सूबेदार जवाहर सिंह चहर (जेसी-640817एम), 01 जुलाई 2005

#### सूबेदार मेजर लिपिक जी डी

सूबेदार अजय कुमार यादव (जेसी-640629एल), 16 फरवरी 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार द्रोणाचार्य (जेसी-640474एफ), 01 मार्च 2005

सूबेदार निरंजन नायक (जेसी-640327वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार महेन्द्र सिंह शेखावत (जेसी-640633एन), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार ए सेकर (जेसी-640645एच), 01 मई 2005

सूबेदार सुशील सेनगुप्ता (जेसी-640639पी), 03 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार मो जब्बार अली (जेसी-640654के), 01 जून 2005

सूबेदार भरत प्रसाद सिंह (जेसी-640648डब्ल्यू), 01 जून 2005

सूबेदार सुब्रामोनिया बाबु एन (जेसी-640658ए), 01 जुलाई 2005

#### सूबेदार मेजर एस के टी

सूबेदार भट रूपलाल प्रताप दत्त (जेसी-213692एच), 14 फरवरी 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार हुकम चन्द चौहान (जेसी-213661एच), 03 मार्च 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार कल्लयान शंकरन ए (जेसी-213704एम), 01 मार्च 2005

सूबेदार बुबेन चन्द्र बोराह (जेसी-213861वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार चन्द्र केशवर चौबे (जेसी-213843डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

सूबेदार राम किशोर निगम (जेसी-213810एल), 01 मार्च 2005

सूबेदार दयाल प्रसाद (जेसी-213844वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार लालन मिश्रा (जेसी-215512एन), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार ए अगस्टीन (जेसी-215486एक्स), 02 अप्रैल 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार मंगलुरी श्रीमान नारायण (जेसी-215510एच), 18 अप्रैल 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार के पेरुमल (जेसी-215518पी), 02 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार गनपत लाल (जेसी-215513डब्ल्यू), 26 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-215514वाई), 07 जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार दिनेश चन्द्र देवनाथ (जेसी-215535पी), 25 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार ए जोसेफ (जेसी-215542एल), 02 जून 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार अशोक कुमार मिश्रा (जेसी-215545वाई), 18 जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर कैटीन

सूबेदार शिव वीर सिंह (जेसी-213429एक्स), 05 जुलाई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

(पशु परिवहन)

पक्के रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)

नायब रिसालदार जगबीर सिंह (जेसी-680548एल), 16 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005\*

नायब रिसालदार आर के वर्मा (जेसी-680561एक्स), 01 मार्च 2005

नायब रिसालदार सुदामा नन्द (जेसी-680569के), 01 मई 2005

नायब रिसालदार महादेव सिंह (जेसी-680577एच), 03 जून 2005/01 मई 2005\*

नायब रिसालदार शिओ कुमार झा (जेसी-680578एल), 09 जून 2005/01 मई 2005\*

नायब रिसालदार नरेन्द्र नाथ (जेसी-680579एल), 16 जुलाई 2005/01 जून 2005\*

नायब रिसालदार के के लोहार (जेसी-680581एल), 16 जुलाई 2005/01 जून 2005\*

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जेसी-680583 डब्ल्यू), 16 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (ए एस एच/ए टी)

दफादार इंदर देव राम (सं. 6471675एच अब जेसी-680778एफ), 07 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005\*

दफादार प्रहलाद मीना (सं. 6471712एम अब जेसी-680779के), 31 मई 2005/01 अप्रैल 2005\*

दफादार दर्शन सिंह (सं. 6471697एफ अब जेसी-680782के), 07 जुलाई 2005/23 अप्रैल 2005\*

दफादार डी एन मेधी (सं. 6472515पी अब जेसी-680784पी), 05 जुलाई 2005/12 मार्च 2005\*

दफादार विजयरन ए सी (सं. 6483971ए अब जेसी-680785एक्स), 08 जुलाई 2005/23 अप्रैल 2005\*

दफादार ब्रज बिहारी सिंह (सं. 6471752एम अब जेसी-680787एच), 04 जून 2005/01 मई 2005\*

दफादार भोला राम (सं. 6471780वाई अब जेसी-680789एन), 09 जून 2005/01 मई 2005\*

दफादार विपीन कुमार (सं. 6471804एक्स अब जेसी-680797एम), 18 जून 2005/01 मई 2005\*

दफादार पी आर बारो (सं. 6482630एच अब जेसी-680795एफ), 13 जून 2005/01 मई 2005\*

दफादार राज पाल (सं. 6471841एल अब जेसी-680799एक्स), 25 मई 2005/01 मई 2005\*

दफादार एम नन्दा बाबु सिंघा (सं. 6471856एन अब जेसी-680802एम), 01 जून 2005

दफादार रघुबीर सिंह (सं. 6471857डब्ल्यू अब जेसी-680803पी), 01 जून 2005

दफादार एम ए साब देसाई (सं. 6471864एम अब जेसी-680805ए),  
01 जून 2005

दफादार जगराम गुर्जर (सं. 6471874डब्ल्यू अब जेसी-680801के),  
07 जुलाई 2005/01 जून 2005\*

दफादार जगदीश प्रसाद (सं. 6471878पी अब जेसी-680806एच),  
01 जून 2005

दफादार लाडु राम (सं. 6471881एम अब जेसी-680807एल),  
03 जून 2005/01 जून 2005\*

दफादार प्रताप सिंह (सं. 6471882पी अब जेसी-680808एन),  
29 जून 2005/01 जून 2005\*

दफादार मारुति लक्ष्मण हुली (सं. 6471888डब्ल्यू अब जेसी-  
680811एन), 01 जुलाई 2005

दफादार श्याम बिहारी सिंह (सं. 6471924डब्ल्यू अब जेसी-  
680813वाई), 01 जुलाई 2005

दफादार निरंजन साह (सं. 6471930के अब जेसी-680814एफ),  
01 जुलाई 2005

दफादार राम पाल (सं. 6471934ए अब जेसी-680815के),  
01 जुलाई 2005

दफादार आर कुमार चोबे (सं. 6471938डब्ल्यू अब जेसी-  
680816एम), 01 जुलाई 2005

दफादार टी मरिअप्पन (सं. 6471969डब्ल्यू अब जेसी-  
680818एक्स), 01 जुलाई 2005

दफादार बी बी महन्ती (सं. 6471994पी अब जेसी-680819ए),  
01 जुलाई 2005

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जाती है)

तोपखाना अभिलेख

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी/एस के टी) के पद में

हवलदार (क्लर्क) कन्हैया प्रसाद (सं. 14474239एफ अब  
जेसी-268288एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) राम मेहर (सं. 14350703एम अब  
जेसी-268339डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) उन्नीकृष्ण पी वी (सं. 14352540एच अब  
जेसी-268340एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) बजरंग सिंह राठौर (सं. 14353463एल अब  
जेसी-268418एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) ब्रजेश कुमार (सं. 14473506एल अब  
जेसी-268341एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार (एस के टी) बिनोद सिंह सिसोदिया (सं. 14489228एम  
अब जेसी-268342डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) राधा कृष्ण पिल्लै जे (सं. 14473598एच अब  
जेसी-268343वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) अब्दुल मलिक (सं. 14357189डब्ल्यू अब  
जेसी-268344एफ), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) सतबिन्दर सिंह (सं. 14357470वाई अब  
जेसी-268345के), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) महिन्दर पाल सिंह चौहान (सं. 14360059वाई अब  
जेसी-268419एन), 02 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

हवलदार (एस के टी) शिव कुमार (सं. 14489294पी अब  
जेसी-268346एम), 01 अगस्त 2005

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) राम सिंह (सं. 14361503डब्ल्यू अब  
जेसी-268420एच), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) योगराज शर्मा (सं. 14477206एफ अब  
जेसी-268347पी), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) टेक चन्द (सं. 14477887पी अब जेसी-  
268421एल), 10 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

हवलदार (क्लर्क) रमेश कुमार (सं. 14371852एन अब  
जेसी-268422एन), 03 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

हवलदार (क्लर्क) सुभाष चन्द्र (सं. 14484875एच अब  
जेसी-268423डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) दया राम (सं. 14372204एक्स अब  
जेसी-268348एक्स), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) राजपाल सिंह (सं. 14484884के अब  
जेसी-268424वाई), 04 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

हवलदार (क्लर्क) अशोक कुमार श्रीवास्तव (सं. 14372210एल अब  
जेसी-268349ए), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) बिनोद कुमार चतुर्वेदी (सं. 14484903के अब  
जेसी-268425एफ), 01 अगस्त 2005\*

हवलदार (क्लर्क) फकीर नागराल (सं. 14372225एन अब  
जेसी-268289डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार (एस के टी) जीत सिंह (सं. 14489360एम अब जेसी-  
268426के), 09 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

हवलदार (क्लर्क) धरम वीर (सं. 14361311वाई अब  
जेसी-268227डब्ल्यू), 01 जून 2005

हवलदार (क्लर्क) विजयन क्लारीवयाल (सं. 14363207के अब  
जेसी-268338एन), 01 जून 2005

हवलदार (क्लर्क) चन्द्रप्पा एच वी (सं. 14477838एम अब जेसी-  
268228वाई), 01 जून 2005

हवलदार (क्लर्क) सुभाष सावन्त (सं. 14478125एन अब जेसी-  
268229एफ), 01 जून 2005

हवलदार (क्लर्क) सतीश चन्द्र (सं. 14484178एच अब जेसी-  
268230डब्ल्यू), 01 जून 2005

हवलदार (एस के टी) ब्रह्म प्रकाश (सं. 14355235एफ अब जेसी-268231वाई), 02 जून 2005/01 जून 2005\*

हवलदार (एस के टी) ब्रिजबली यादव (सं. 14355521एच अब जेसी-268232एफ), 01 जून 2005

हवलदार (एस के टी) सीताराम (सं. 14355782डब्ल्यू अब जेसी-268233के), 01 जून 2005

हवलदार (एस के टी) क्रिशन सिंह (सं. 14374740वाई अब जेसी-268234एम), 01 जून 2005

हवलदार (एस के टी) गंगा प्रसाद (सं. 14375061एन अब जेसी-268235पी), 01 जून 2005

हवलदार (एस के टी) दिलीप चौधरी (सं. 14375728के अब जेसी-268236एक्स), 01 जून 2005

हवलदार (एस के टी) मुथुकरप्पा सामी के (सं. 14488358एच अब जेसी-268237ए), 01 जून 2005

हवलदार (एस के टी) एस बी विजय कुमार (सं. 14377031पी अब जेसी-268287एल), 01 जून 2005

हवलदार (क्लर्क) महेश चन्द्र जोशी (सं. 14484190के अब जेसी-268238एच), 01 जुलाई 2005

हवलदार (क्लर्क) सुमन्त प्रसाद (सं. 14484209एक्स अब जेसी-268239एल), 01 जुलाई 2005

हवलदार (क्लर्क) कैलाश बाबू पाल (सं. 14484509वाई अब जेसी-268240ए), 01 जुलाई 2005

हवलदार (क्लर्क) जय चन्द्र सिंह (सं. 14484522एच अब जेसी-268241एच), 01 जुलाई 2005

हवलदार (क्लर्क) रविन्द्र कुमार (सं. 14371803एल अब जेसी-268242एल), 01 जुलाई 2005

हवलदार (क्लर्क) राजेश कुमार (सं. 14371841एफ अब जेसी-268243एन), 01 जुलाई 2005

हवलदार (क्लर्क) औमकार (सं. 14484640एन अब जेसी-268244डब्ल्यू), 04 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

हवलदार (क्लर्क) अशोक कुमार (सं. 14484641वाई अब जेसी-268245वाई), 01 जुलाई 2005

हवलदार (एस के टी) कैलाश चन्द्र (सं. 14488723वाई अब जेसी-268246एफ), 01 जुलाई 2005

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार हरे राम सिंह (14487935एक्स अब जेसी-268071के), 26 अप्रैल 2005/01 नवम्बर 2004\*

हवलदार रवेन्द्रा सिंह (14490012एक्स अब जेसी-268072एम), 08 अप्रैल 2005/26 नवम्बर 2004\*

आर एच एम राधा कृष्णन पी (14364779एक्स अब जेसी-268073पी), 22 अप्रैल 2005/30 नवम्बर 2004\*

हवलदार येतेन्द्रा पाल सिंह (14465031एक्स अब जेसी-268074एक्स), 03 मई 2005/01 जनवरी 2005\*

हवलदार उमेश प्रसाद (14360042एल अब जेसी-268075ए), 26 अप्रैल 2005/01 जनवरी 2005\*

हवलदार जीत सिंह (14479438वाई अब जेसी-268076एच), 27 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005\*

बी एच एम भास्करन चन्द्रा कोनार (14347874एन अब जेसी-268077एल), 13 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005\*

हवलदार राधाकृष्णन वी (14365335ए अब जेसी-268078एन), 04 मार्च 2005/01 फरवरी 2005\*

हवलदार अंगनी कुमार रॉय (14361562एच अब जेसी-268079डब्ल्यू), 21 अप्रैल 2005/04 फरवरी 2005\*

हवलदार जगतार सिंह (14479365एच अब जेसी-268080एल), 27 अप्रैल 2005/04 फरवरी 2005\*

हवलदार जलबीर सिंह (14363742के अब जेसी-268081एन), 26 अप्रैल 2005/25 फरवरी 2005\*

आर एच एम रमेश कुमार (14359850डब्ल्यू अब जेसी-268082डब्ल्यू), 21 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005\*

हवलदार सुभाष चन्द (14366716एन अब जेसी-268083वाई), 24 जनवरी 2005/01 मार्च 2005\*

हवलदार राम सजीवन पटेल (14363086एन अब जेसी-268084एफ), 26 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005\*

हवलदार रामबीर सिंह (14379961पी अब जेसी-268085के), 04 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005\*

हवलदार गोपी टी वी (14474341के अब जेसी-268086एम), 16 मई 2005/01 मई 2005\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी. डी.) के पद में

सूबेदार एस वेंकाटेशन (जेसी-296461एच), 01 जुलाई 2005

सूबेदार श्याम कुमार भुयां (जेसी-296046एफ), 01 अगस्त 2005

सूबेदार सिवाराजन आर (जेसी-296751ए), 01 अगस्त 2005

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (टी. आई. एफ. सी.) के पद में

सूबेदार शंकरन ए वी (जेसी-221190पी), 11 अगस्त 2005/01 जून 2005\*

सूबेदार माली राम गूजर (जेसी-255294एच), 01 जून 2005

सूबेदार सी रेड्डप्पा (जेसी-256741एन), 19 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*



## सब्सटेंटिव सूबेदार (जी. डी.) के पद में

नायब सूबेदार सजन कुमार सिंह (जेसी-298215डब्ल्यू), 15 जुलाई 2005/13 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार जैमल सिंह (जेसी-297998एन), 15 जुलाई 2005/30 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-298327डब्ल्यू), 29 जुलाई 2005/13 अप्रैल 2005\*

नायब सूबेदार लोहार मिनीनाथ, सिद्धू (जेसी-297097एफ), 10 जून 2005/01 मई 2005\*

नायब सूबेदार प्रोकाश कृपालानी (जेसी-297671पी), 03 मई 2005/01 मई 2005\*

नायब सूबेदार मधुसूदन बेहरा (जेसी-298139पी), 13 जून 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश चौधरी (जेसी-298262एन), 01 जुलाई 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार कावल सिंह (जेसी-298342एल), 06 जून 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार अमि लाल (जेसी-298059एक्स), 30 जून 2005/08 जून 2005\*

नायब सूबेदार कुसुमांची सत्यनारायना मुर्ती (जेसी-297509एक्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार नरेंद्र कुमार सिंह (जेसी-298038एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार गगन सिंह (जेसी-298135वाई), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार बापूजी (जेसी-298180एल), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार अनन्त कुमार बर्मन (जेसी-298198एफ), 20 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार जॉनसन टि जे (जेसी-298315एफ), 12 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार रामदीन राम (जेसी-298524वाई), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार हिरा लाल भावरीया (जेसी-298658एक्स), 21 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-298191एक्स), 09 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार मिशाल सोयरोबा काशिनाथ (जेसी-298663एच), 01 अगस्त 2005

## सब्सटेंटिव सूबेदार (टि. आई. एफ. सी.) के पद में

नायब सूबेदार सदासिवन चैरीया परमबथ (जेसी-298744एच), 24 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

## सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार कृष्णा कुमार शर्मा (जेसी-297531एच), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जेसी-297626एच), 01 अगस्त 2005

## सब्सटेंटिव सूबेदार (एस. के. टि.) के पद में

नायब सूबेदार धरम चंद (जेसी-297774एन), 15 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

एम. एम. सिंह  
अवर सचिव

सं. 537, दिनांक 24 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले. कर्नल (टी एस) से ले. कर्नल

आई सी नं., नाम और आर्म

आई सी-37757 ए अचार्य, इन्फैन्ट्री

आई सी-37766 आर के दीक्षित, इन्फैन्ट्री

आई सी-37775 आर के राहुल, इन्ट

आई सी-37777 आर जे फर्नान्डिस, इन्फैन्ट्री

आई सी-37779 तेजवंत सिंह, ए एस सी

आई सी-37780 जोसी जार्ज, इन्फैन्ट्री

आई सी-37785 एन बी चिनप्पा, इन्फैन्ट्री

आई सी-37786 पी के पंडित, इन्ट

आई सी-37792 रविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री

आई सी-37798 ए डी संगानागौड, इन्ट

आई सी-37799 एस एस बक्शी, ए ओ सी

आई सी-37801 पी रावल, ए सी

आई सी-37806 एम एन एम बाबू, सिग्नल्स

आई सी-37808 जे मुखार्जी, आर्टी

आई सी-37821 पी सी मैथानी, इन्फैन्ट्री

आई सी-37842 जी डी एस रंधावा, ए सी

आई सी-37844 पी श्री कुमार, इन्जीनियर्स

आई सी-37846 के आर एस शुक्ला, आर्टी

आई सी-37850 संजीव मलिक, ए सी

आई सी-37852 राजेश मिश्रा, इन्फैन्ट्री

आई सी-37854 राजीव माथुर, ए सी

आई सी-37878 एन के शर्मा, आर्टी

आई सी-37884 पी श्रीवास्तवा, ए ओ सी

आई सी-37896 रामदत्त शर्मा, इन्फैन्ट्री

आई सी-37899 के राजा विक्रम, सिग्नल्स

आई सी-37904 एस प्रहाराज, सिग्नल्स

आई सी-37905 अशोक कुमार, ए ओ सी

आई सी-37908 एम सी आर के नायर, ए एस सी

आई सी-37910 एस एस कुशवाहा, इन्फैन्ट्री

आई सी-37912 पी कुलश्रेष्ठा, इन्फैन्ट्री

आई सी-37914 एस पी विलेकर, ए सी

आई सी-37916 एस भट्टाचार्य, आर्टी

आई सी-37917 बी एस यादव, इन्फैन्ट्री

आई सी-37927 एस सी कटोच, इन्फैन्ट्री

आई सी-37935 नरेन्द्र सिंह, मैक इन्फैन्ट्री

आई सी-37942 टी बी राणा, इन्फैन्ट्री

आई सी-37948 एम के बाधावन, आर्टी

आई सी-37952 एच जी खारे, ए एस सी

आई सी-37963 एस के शर्मा, इन्फैन्ट्री

आई सी-37965 भूपेन्द्र सिंह, ए एस सी

आई सी-37971 दीपक बहल, ए एस सी

आई सी-37976 एस सुरचन्द सिंह, सिग्नल्स

आई सी-37980 आर एस एन्ड्रयूज, आर्टी

आई सी-37982 पी के यादव, ए ओ सी

आई सी-37989 करम जीत सिंह, आर्टी

आई सी-37994 मंजीत सिंह, ए सी

आई सी-39442 रोहित शुक्ला, ए सी

आई सी-39483 पुरोजित रॉय, इन्फैन्ट्री

आई सी-39498 पी चन्द्रा, इन्फैन्ट्री

आई सी-39502 एन डी चौहान, इन्फैन्ट्री

आई सी-39511 ए के प्रसाद, इन्फैन्ट्री

आई सी-39524 प्रशांत कुमार, आर्टी

आई सी-39529 पी बी यादव, इन्फैन्ट्री

आई सी-39531 बी जे एस हनसरा, इन्फैन्ट्री

आई सी-39534 यू सी दूबे, ए डी ए

आई सी-39535 अरविन्दर सिंह, आर्टी

आई सी-39543 एन एस लाम्बा, ए ओ सी

आई सी-39547 टी सी दहिया, इन्ट

आई सी-39571 रविन्द्रन के, ए सी

आई सी-39578 अभय प्रकाश, आर्टी

आई सी-39595 ओ पी चौधरी, ए सी

आई सी-39597 एस एन उबगड़े, आर्टी

आई सी-39599 डी एस भाटी, इन्ट

आई सी-39612 टी एस पूनिया, ई एम ई

आई सी-39615 यशपाल जगिया, इन्फैन्ट्री

आई सी-39622 पी एल के थॉमस, मैक इन्फैन्ट्री

आई सी-39623 पुनजाब सिंह, इन्फैन्ट्री

आई सी-39629 राम कुमार, आर्टी

आई सी-39631 ए आर सरकार, आर्टी

आई सी-39635 ए आर थापन, आर्टी

आई सी-39640 आर के महिंदर, इन्फैन्ट्री

आई सी-39641 एम डी अमनुल्ला, ए डी ए

आई सी-39658 एम थयल, इन्फैन्ट्री

आई सी-39663 दीन दयाल, इन्फैन्ट्री

आई सी-39667 ए के गुप्ता, इन्फैन्ट्री

आई सी-39670 मनवेन्द्र मेहता, ए सी

आई सी-39671 आर एस घोत्रा, आर्टी

आई सी-39674 एल के बोराह, ए एस सी

आई सी-39684 बी पी सिंह कुशवाहा, ए सी

आई सी-39686 टी एस एम बी नाथन, इन्फैन्ट्री

आई सी-39688 के के त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री

आई सी-39695 सतीश खात्री, ए सी

आई सी-39713 के उप्पल, आर्टी

आई सी-39714 पी के बठाला, ए ओ सी  
 आई सी-39717 सुधीर शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39718 आर रामाथ, आर्टी  
 आई सी-39719 एस पंचलोथिअ, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39720 डी डी शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39721 के बी कौशल, आर्टी  
 आई सी-39723 एन पी एस मान, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39727 एस पूरी, ए सी  
 आई सी-39728 खांगरा राम, सिग्नल्स  
 आई सी-39729 ए के सतपाथी, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39730 अबीर चौधरी, ए डी ए  
 आई सी-39731 आर एन रामपाल, आर्टी  
 आई सी-39732 के राजागोपालन, ए डी ए  
 आई सी-39733 एस वाई अगा, आर्टी  
 आई सी-39735 पी के रॉय, आर्टी  
 आई सी-39741 के आर सुराराज, आर्टी  
 आई सी-39743 पी एस सरना, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39745 अशोकन के, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39748 आर एस राना, ए डी ए  
 आई सी-39752 एस एस सरॉव, इन्ट  
 आई सी-39755 बी एस बसरौन, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39757 के एस एस रॉव, आर्टी  
 आई सी-39767 तपेश कंवर, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39768 एस एन चन्ना, इन्ट  
 आई सी-39770 एस सी दास, आर्टी  
 आई सी-39773 जी पी सिंह, ए डी ए  
 आई सी-39776 वी के आर आर पिम्पले, आर्टी  
 आई सी-39778 ए के गिलदयाल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39785 वी कुमार, आर्टी  
 आई सी-39786 पी के शर्मा, ए डी ए  
 आई सी-39788 उदय सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39790 आर उपाध्याय, आर्टी  
 आई सी-39794 एन एस पटनिया, ए एस सी

आई सी-39800 शरिश कम्बोज, ए ई सी  
 आई सी-39811 विजय सिंह, ए ई सी  
 आई सी-39821 पला राम, ए ई सी  
 आई सी-39827 जे एस धिमान, ए ई सी  
 आई सी-39852 इन्दर मोहन, ए ई सी  
 आई सी-39856 पी के मदन, ए ई सी  
 आई सी-39878 एस एस गोरया, ए एस सी  
 आई सी-39884 टी के पॉल, ए सी  
 आई सी-39891 टार एल बिजरानिया, ए डी ए  
 आई सी-39900 टी एस कर्वर, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39923 अरविन्द कांत, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39933 डी समल, ए डी ए  
 आई सी-39944 अतुल दत्त, ई एम ई  
 आई सी-39947 डी एस नगिल, मैक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39957 पी पी वेनुगोपालन, ए एस सी  
 आई सी-39963 के पी वी रवि, आर्टी  
 आई सी-39973 आर सी एस आर्य, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-39982 मलकीत सिंह, आर्टी  
 आई सी-39983 जी एस मनहास, आर्टी  
 आई सी-40024 जे एस धनोअ, ए सी  
 आई सी-40029 ए पी तनवर, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40038 रवि विग, आर्टी  
 आई सी-40047 के टी मेथ्यू, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40051 पी एस डिल्लन, ए सी  
 आई सी-40057 एम सलीम, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40071 इन्दरजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40085 एम एम खान, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40086 एन सिंह, आर्टी  
 आई सी-40087 योशान्न आई, आर्टी  
 आई सी-40103 आर एस सेखोन, ए सी  
 आई सी-40108 एस चौधरी, ए ओ सी  
 आई सी-40117 अरूणजीत सिंह, ए सी  
 आई सी-40118 एस एस पटेल, सिग्नल्स

आई सी-40119 यू सी शर्मा, आर्टी	आई सी-40256 एस रिचर्ड, ए डी ए
आई सी-40123 हरी परमार, इन्फैन्ट्री	आई सी-40260 धर्मवीर सिंह, इन्ट
आई सी-40129 एस जी आर चौधरी, ए सी	आई सी-40261 दीपक त्रिपथ, आर्टी
आई सी-40142 जयवीर सिंह, सिग्नल्स	आई सी-40269 ए के तोमर, ए ई सी
आई सी-40148 टी वी ए कुमार, मैक इन्फैन्ट्री	आई सी-40271 के एम महापति, ए ई सी
आई सी-40160 ए माथुर, इन्फैन्ट्री	आई सी-40318 के के कुमार, सिग्नल्स
आई सी-40163 ए के शिंदे, ए डी ए	आई सी-40361 ओ एस सिनसिनवार, आर्टी
आई सी-40169 पी शहीद, इन्फैन्ट्री	आई सी-40372 रंधीर सिंह, ए ओ सी
आई सी-40172 ए के सिंह, आर्टी	आई सी-40386 डी एस पाण्डे, इन्फैन्ट्री
आई सी-40177 आर एस छेत्री, इन्फैन्ट्री	आई सी-40392 के मितल, ए सी
आई सी-40181 एस के चौधरी, आर्टी	आई सी-40397 वी एस पाटिल, ए ओ सी
आई सी-40187 करतर सिंह, ए एस सी	आई सी-40409 एस वी एम देशपांडे, सिग्नल्स
आई सी-40188 के डी प्रसाद, आर्टी	आई सी-40414 एन कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-40190 पी एस कुमार, ए डी ए	आई सी-40418 पवन कुमाम, ए ओ सी
आई सी-40191 टेक सिंह, ए ओ सी	आई सी-40432 एस के निरंजन, इन्फैन्ट्री
आई सी-40193 एस एस दिवाकर, आर्टी	आई सी-40444 राजेन्द्र सिंह, सिग्नल्स
आई सी-40194 ओम प्रकाश, इन्फैन्ट्री	आई सी-40449 बी तलवार, ए ओ सी
आई सी-40195 जे एस चौधरी, इन्फैन्ट्री	आई सी-40451 आर के एस सुहाग, इन्फैन्ट्री
आई सी-40201 एस खुराना, ए सी	आई सी-40452 परमजीत सिंह, आर्टी
आई सी-40210 शशि थॉमस, इंजीनियर्स	आई सी-40455 एस पी शर्मा, ए एस सी
आई सी-40213 अतुल कुमार, आर्टी	आई सी-40456 राधे श्याम, इन्फैन्ट्री
आई सी-40224 ई पी पी टॉपनो, इन्फैन्ट्री	आई सी-40458 एम एन दानी, इन्फैन्ट्री
आई सी-40225 सुभाष पाल, इन्फैन्ट्री	आई सी-40459 पी के रॉयल, इन्फैन्ट्री
आई सी-40226 टी वी एस मुर्ति, इन्फैन्ट्री	आई सी-40460 बी भक्त लेखक, आर्टी
आई सी-40228 जगमोहन धिर, इन्फैन्ट्री	आई सी-40461 आर चोपरा, इन्फैन्ट्री
आई सी-40230 एन खान, ए एस सी	आई सी-40473 पी बी थापा, मैक इन्फैन्ट्री
आई सी-40236 आर के पाण्डेय, ए डी ए	आई सी-40477 वी वेंकटेश्वरन, इंजीनियर्स
आई सी-40237 वी राजेन्द्रा, आर्टी	आई सी-40481 एस के सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
आई सी-40241 अनिल कुमार, आर्टी	आई सी-40488 मनधीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-40247 आर एस प्रसाद, ए सी	आई सी-40491 ए एस बाजवा, ए सी
आई सी-40251 सी एस मुलगुन्द, आर्टी	आई सी-40494 एस एस दुबे, आर्टी
आई सी-40252 नितिन चोपरा, आर्टी	आई सी-40497 आर बी एस रावत, इन्फैन्ट्री
आई सी-40255 आर के सिंह, ए एस सी	आई सी-40502 ए के सिंह, इन्ट

आई सी-40509 आर आर पाणीग्राही, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40510 वी के सावंत ए एस सी  
 आई सी-40525 बी एस भाटी, आर्टी  
 आई सी-40532 एस एस जोगी, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40541 पी पी एन पिल्लेई, ए डी ए  
 आई सी-40544 एस कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40547 ए के गुप्ता, ए डी ए  
 आई सी-40551 ए एस नेगी, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40557 आर ए भाड, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40575 राघवीर सिंह, आर्टी  
 आई सी-40587 जय सिंह, ए एस सी  
 आई सी-40589 टी होडा, ए सी  
 आई सी-40595 अरविन्द कुमार सिंह, ए ओ सी  
 आई सी-40602 आर आर वर्मा, आर्टी  
 आई सी-40603 आर के प्रसाद, आर्टी  
 आई सी-40606 वाई आर रेड्डी, इन्जीनियर्स  
 आई सी-40608 आर रेहशी, इन्जीनियर्स  
 आई सी-40609 एम एन राधा, ए ओ सी  
 आई सी-40611 जी आर जार्ज, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40613 जी एल शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40619 पी गुप्ता, मैक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40620 एस कुमार, ए डी ए  
 आई सी-40622 एस एस भुल्लर, ए सी  
 आई सी-40625 के पी मिश्रा, ई एम ई  
 आई सी-40629 ए के गैरोला, ए एस सी  
 आई सी-40630 पी चन्द्रा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40632 के मलेशी, इन्जीनियर्स  
 आई सी-40633 अजीत सिंह, ए ओ सी  
 आई सी-40637 इन्द्रजीत रॉय, आर्टी  
 आई सी-40642 आलोक माथुर, ई एम ई  
 आई सी-40643 एन एस असवल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40644 पी वी सीताराम, ए एस सी  
 आई सी-40646 एस कुमार, ए ओ सी  
 आई सी-40706 रछपाल सिंह, ए सी

आई सी-40733 जी जॉसेफ, आर्टी  
 आई सी-40738 एस के लशकर, आर्टी  
 आई सी-40739 वी के कोतवाल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40756 वी भट्ट, इन्ट  
 आई सी-40810 डी एस भट्टी, मैक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40816 वी करद, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40820 जॉन एन साइरेक, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40823 जी एस दनु, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40827 ए कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40829 संजय दुबे, ए एस सी  
 आई सी-40832 सतीश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40881 ए मुखर्जी, आर्टी  
 आई सी-40893 जी प्रसाद, आर्टी  
 आई सी-40896 वी के भारद्वाज, सिग्नल्स  
 आई सी-40898 पी वी हरि, आर्टी  
 आई सी-40903 नजमुल अहसन, सिग्नल्स  
 आई सी-40908 एस घोष, आर्टी  
 आई सी-40910 गुमसोर अंगो, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40914 एम के मिश्रा, ए एस सी  
 आई सी-40916 बिपिन विहारी, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40930 पी के विश्वास, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40935 आर के रवि, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40942 डी एस सोधी, मैक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40949 एल वी रमन, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40957 के के भाटिया, इन्जीनियर्स  
 आई सी-40959 अरुण खन्ना, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40967 विवेक शरण, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40969 जवाहर मंडल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-40970 हरदीप जुड़ो, ए ओ सी  
 आई सी-40972 ए के सिंह, इन्जीनियर्स  
 आई सी-40983 डी बरूह, ए ओ सी  
 आई सी-40987 एन मुर्लीधर, आर्टी  
 आई सी-40988 रविन्दर सिंह, ए ओ सी

आई सी-40990 वाई सिंह, इन्फैन्ट्री	आई सी-41822 ए के चौहान, ए ई सी
आई सी-40995 ए के वर्मा, इन्फैन्ट्री	आई सी-41831 के वी वी कुमार, इन्जीनियर्स
आई सी-40997 आर के गोविल, इन्फैन्ट्री	आई सी-41833 नरेन्द्र कुमार, ए ई सी
आई सी-40998 रणवीर सिंह, आर्टी	आई सी-41834 आर के शर्मा, सिग्नल्स
आई सी-41011 एल्बर्ट राज, ई एम ई	आई सी-41835 अनिल कुमार, इन्जीनियर्स
आई सी-41014 एम एल तिवारी, आर्टी	आई सी-41837 अनिल बहल, ई एम ई
आई सी-41017 आर शर्मा, इन्फैन्ट्री	आई सी-41840 अजय मेहता, ए ई सी
आई सी-41021 एस कुमार, आर्टी	आई सी-41842 जे पी जार्ज, ए ई सी
आई सी-41027 पी सी झा, ए डी ए	आई सी-42157 आर आर नारायणन, ए डी ए
आई सी-41029 एम एस सिंह, इन्ट	आई सी-42681 सी वी एस सेहगल, इन्जीनियर्स
आई सी-41031 सी सुब्रामनियम, इन्फैन्ट्री	आई सी-42702 आर यादव, ई एम ई
आई सी-41038 टी हुसैन, इन्फैन्ट्री	आई सी-42705 आर माथुर, इन्जीनियर्स
आई सी-41096 दिनेश कुमार शर्मा, ए डी ए	आई सी-42713 कृष्ण चन्द, इन्जीनियर्स
आई सी-41179 सी एस सलुन्के, इन्जीनियर्स	आई सी-42714 एस रमेश, सिग्नल्स
आई सी-41237 ए एस मनोहरन, सिग्नल्स	आई सी-42715 पी ए भिकाजी, इन्जीनियर्स
आई सी-41270 राजीव बक्शी, इन्जीनियर्स	आई सी-42717 दीपक दीक्षित, ई एम ई
आई सी-41313 केदार सिंह, आर्टी	आई सी-42718 एस के पाण्डे, सिग्नल्स
आई सी-41338 एस नंदा, ए डी ए	आई सी-42721 डी आर वसंतराव, सिग्नल्स
आई सी-41371 आर एस रेहिल, ए डी ए	आई सी-42724 दीपक राठौर, सिग्नल्स
आई सी-41382 आर के सिंह, इन्फैन्ट्री	आई सी-42728 सरवजीत सिंह, सिग्नल्स
आई सी-41491 जे एस ठाकुर, इन्फैन्ट्री	आई सी-42730 आलोक गोयल, इन्जीनियर्स
आई सी-41405 डी एस वर्मा, ए एस सी	आई सी-42731 आई एस ढिल्लन, सिग्नल्स
आई सी-41436 एन एस सिद्ध, ए ई सी	आई सी-42735 एन यू शैखा, इन्जीनियर्स
आई सी-41441 प्रदीप माथुर, सिग्नल्स	आई सी-42736 डी एस ढिल्लन, इन्जीनियर्स
आई सी-41443 डी एन झा, ए ई सी	आई सी-42737 डी के बर्थवाल, सिग्नल्स
आई सी-41446 राम कुमार दुबे, सिग्नल्स	आई सी-42743 एस बनर्जी, ई एम ई
आई सी-41447 एस के शर्मा, सिग्नल्स	आई सी-42746 आर के श्रीवास्तव, सिग्नल्स
आई सी-41451 एन सी शुक्ला, ए ई सी	आई सी-45018 जे के पुन, इन्फैन्ट्री
आई सी-41454 जी महादेवन, सिग्नल्स	आई सी-45027 मनमोहन बिष्ट, ए ओ सी
आई सी-41455 टी वी सुब्बा राव, इन्जीनियर्स	आई सी-45030 ए सहार्ड, ए डी ए
आई सी-41460 आर एन पी सिंह, ई एम ई	आई सी-45032 बी एस सैनी, इन्फैन्ट्री
आई सी-41532 वाई शरोत, ए डी ए	आई सी-45038 अशोक कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-41562 पी एस गंगवर, ए डी ए	आई सी-45039 ओ आर सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-41721 आर एस ग्रेवाल, ए ओ सी	आई सी-45045 एस के बक्शी, आर्टी

आई सी-45051 ए आर वर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-45062 एस नारायण, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-45078 ए चौधरी, ए डी ए  
 आई सी-45079 एस के भट, आर्टी  
 आई सी-45081 अनुज सेठी, मैक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-45082 बी एस कट्यर्य, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-45084 डी के कोशिक, इन्जीनियर्स  
 आई सी-45087 वाई एस गुलेरिया, ए एस सी  
 आई सी-45089 एम के चतुर्वेदी, सिग्नल्स  
 आई सी-45096 अमित रॉय, ए डी ए  
 आई सी-45098 बी के माजुमदार, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-45099 संजीव कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-45101 ए पी श्रीवास्तव, ई एम ई  
 आई सी-45102 एस के ढडवाल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-45112 आर मेहरोत्रा, ए सी  
 आई सी-45131 आर गोसाई, सिग्नल्स  
 आई सी-45139 एस डी सी शर्करा, आर्टी  
 आई सी-45145 फीरोज खान, ए सी  
 आई सी-45157 पी पी एस सिद्धू, ए सी  
 आई सी-45166 वाई पी सिन्हा, ई एम ई  
 आई सी-45171 एस एस पुंडीर, मैक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-45185 एस त्रिपाठी, ए डी ए  
 आई सी-45230 जे एस भंडारी, ए डी ए  
 आई सी-45268 दीपक वर्मा, ए डी ए

--16 दिसम्बर 2004--

मेजर से ले कर्नल

आई सी-39278 बी. एन. पांडे, आर्टी  
 आई सी-46461 दुष्यंत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-44185 जयंत जायसवाल, आर्टी  
 आई सी-43140 एन एस छाबड़ा, आर्टी  
 आई सी-43329 दिलबाग सिंह, आर्टी  
 आई सी-43410 दीपक डे, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-45472 अशोक कुमार, ई एम ई

--16 दिसम्बर 2004--

एस एल-04010 सुरेन्द्र सिंह, एस एल ई एम ए ई (एस. ए.)  
 एस एल-04013 सोमानाथन बी. ए., एस एल ई एम ए ई (एस. ए.)

एस एल-03131 सतपाल गौगल, एस एल आर ओ  
 एस एल-04130 जगदेव सिंह लागे, एस एल क्यू एम

-- 16 दिसम्बर 2004--

चन्द्र प्रकाश  
 उप निदेशक  
 एम एस-8सी

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 538, दिनांक 21 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

श्री कृष्ण कुमार कटियार, वैज्ञानिक 'बी', ए डी आर डी ई, आगरा को दिनांक 01.07.2005 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर।

श्री भूपेश ए पराटे, वैज्ञानिक 'बी', ए आर डी ई, पूने को दिनांक 01.07.2005 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर।

सासे, चण्डीगढ़ का निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को दिनांक 01.07.2005 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर:--

क्र. स.	नाम
---------	-----

1. श्री एस के जोशी
2. श्री प्रेम दत्त
3. श्री संजय कुमार दिवाली

डी ए आर एल, पिथौरागढ़ का निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को दिनांक 01.07.2005 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर:--

क्र. स.	नाम
---------	-----

1. श्री वी के सिंह
2. श्री एच के पाण्डे

आई आर डी ई, देहरादून का निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को दिनांक 01.07.2005 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर:--

क्र. स.	नाम
---------	-----

1. श्री सुशील कुमार
2. श्रीमती सुनीता
3. श्री शबीर अहमद
4. श्री नितिन अग्रवाल
5. श्री शैलेन्द्र सिंह यादव

आई टी आर, बालासोर का निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को दिनांक 01.07.2005 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-152000 पर:--

क्र. सं.	नाम
1.	श्री संदीप चक्रवर्ती
2.	श्री अनुपम कुमार श्रीवास्तव
3.	श्री सौमन मुर्मू
4.	श्री पंकज गुप्ता
5.	श्री पी कण्णदासन
6.	श्री दीपक दास
7.	श्री प्रदीप्ता राय

डील, देहरादून का निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को दिनांक 01.07.2005 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर:--

क्र. सं.	नाम
1.	श्री प्रकाश चन्द
2.	श्री नितिन वर्मा
3.	श्री जीतेन्द्र सिंह हयांकी

श्री सैरिंग नरबू, प्रशासनिक अधिकारी, एफ आर एल, द्वारा 56 ए पी ओ को 20.04.2005 से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II (ग्रुप ए राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 8000-275-13500 पर।

जे के खडवाल  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 539, दिनांक 21 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापन	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1.	श्री महेश कुमार	मुख्यालय-डी एस टी डी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	मुख्यालय-ओ एण्ड एम	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
3.	श्री रमेश चन्द्र	मुख्यालय-डी सी एस	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापन	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1.	श्री हर गोविन्द	मुख्यालय-डीओपी (कार्मिक 6ए)	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
2.	श्री हर्ष मणि	मुख्यालय-सी ओ ए एस	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
2.	श्री हरीश बिष्ट	मुख्यालय-एच आर डी	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500

बी. बी. शर्मा  
उप निदेशक (कार्मिक 1)

#### सेना शाखा

सं. 540, दिनांक 20 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने और अपना रैंक बनाये रखने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना  
सेवा निवृत्ति

कैप्टन भारत भूषण मुदगिल(टीए-41542), इंजीनियर्स--31 मई 2004

बी इक्का  
अवर सचिव

सं. 541, दिनांक 24 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास-X) अधीन एस ए आई 10/5/63 यथा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

आई सी-41263 ले. कर्नल चन्द्र पुरी, ई एम ई--03 सितम्बर 2004  
(अ.प्र.)



आई सी-31456 कर्नल (टी एस) डी. एस. राघवन, आर्टी--20 दिसम्बर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-36534 कर्नल (टी एस) हेनरी जूडे मेने, आर्टी--06 मार्च 2004 (अ.प्र.)

आई सी-45350 ले. कर्नल अरूण कुमार पाण्डे, ए सी--04 जनवरी 2005 (अ.प्र.)

आई सी-37503 ले. कर्नल (टी एस) अनिल चन्द्रा दत्ता, ए सी--10 मई 2003 (अ.प्र.)

आई सी-39520 मेजर थेतू स्वामी नायडू, ए एस सी--06 अक्टूबर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-35305 कर्नल (टी एस) हरताज सिंह, ए एस सी--03 फरवरी 2005 (अ.प्र.)

आई सी-42735 ले. कर्नल शेख नेमत उल्ला, इंजीनियर--14 फरवरी 2005 (अ.प्र.)

आई सी-42701 मेजर के. सेशाई, इंजीनियर--30 सितम्बर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-44241 मेजर अनिल कुमार, इंजीनियर--14 अक्टूबर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-37452 ले. कर्नल प्रभात कुमार चतुर्वेदी, इंजीनियर--18 नवम्बर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-42120 ले. कर्नल चन्द्र कान्त पुरूथी, सिग्नल्स--04 जनवरी 2005 (अ.प्र.)

आई सी-41739 ले. कर्नल (टी एस) ए आर प्रकाश, सिग्नल्स--15 सितम्बर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-47699 मेजर के. एन सीकर, सिग्नल्स--29 सितम्बर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-42227 ले. कर्नल (टी एस) गुरमोहन सिंह, सिग्नल्स--30 सितम्बर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-40878 ले. कर्नल (टी एस) आर आर कामत, सिग्नल्स--03 नवम्बर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-42247 ले. कर्नल गंजाम श्री निवास चारी उलु, सिग्नल्स--31 जनवरी 2005 (अ.प्र.)

आई सी-40791 मेजर संजीव शर्मा, एम/इन्फैन्ट्री--15 दिसम्बर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-39059 ले. कर्नल कृष्ण बीर सिंह सीरोही, एम/इन्फैन्ट्री--12 अगस्त 2004 (अ.प्र.)

आई सी-41550 ले. कर्नल राजीव, एस एम, इन्फैन्ट्री--08 मार्च 2005 (अ.प्र.)

आई सी-41015 मेजर संजीव सकलानी, इन्फैन्ट्री--10 जुलाई 2004 (अ.प्र.)

आई सी-809 कैप्टन धर्म सिंह चहल, इन्फैन्ट्री--06 सितम्बर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-41600 ले. कर्नल (टी एस) सुरेन्द्र पाल सिंह मिन्हास, इन्फैन्ट्री--19 अक्टूबर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-42014 ले. कर्नल (टी एस) मैथ्यू सीबू जार्ज, इन्फैन्ट्री--16 अक्टूबर 2004 (अ.प्र.)

आई सी-57079 कैप्टन चेतन आनन्द एम, इन्फैन्ट्री--15 फरवरी 2005 (अ.प्र.)

आई सी-41586 ले. कर्नल निरभ भटनागर, इन्फैन्ट्री--08 फरवरी 2005 (अ.प्र.)

आई सी-40146 ले. कर्नल सुशील प्रधान, इन्फैन्ट्री--17 जनवरी 2005 (अ.प्र.)

आर के शर्मा  
संयुक्त निदेशक  
एम एस/पी आर

नेवी ब्रॉच

नौसेना मुख्यालय

सं. 542, दिनांक 19 अक्टूबर 2005--अधिवाषिता की आयु प्राप्त कर लेने पर नौसेना मुख्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दी गई तारीख से सेवा-निवृत्त हुए और उन्हें पेंशन स्थापना में स्थानांतरित कर दिया गया :--

नाम	सेवा-निवृत्त की तिथि	पेंशन स्थापना में स्थानान्तरण की तिथि
श्री बी पी अरोड़ा, एस ओ	28.02.2005	01.03.2005
श्री एस के तुगनैत एस ओ	31.03.2005	01.04.2005
श्री एस के आहूजा, पी एस	31.03.2005	01.04.2005
श्री एस आर मल्होत्रा, पी एस	30.04.2005	01.05.2005
श्री डी बी तिवारी, सं नि.	30.04.2005	01.05.2005
श्री जे एल लूथरा, एस ओ	31.05.2005	01.06.2005
श्री एम सी वर्मा, पी एस	30.06.2005	01.07.2005
श्री टी एन मोंगिया, एस ओ	30.06.2005	01.07.2005
श्री डी एन प्रभाकर, एस ओ	30.06.2005	01.07.2005

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE  
INTEGRATED HEADQUARTERS (NAVY)

New Delhi, the 12th November 2005

No. 533, dated 19.10.2005.— The President is pleased to appoint Smt Nirmal Bhojwani, Russian Steno-I as Section Officer (R) (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ civil service w.e.f. 02.08.2005 in the pay scale of Rs.7500-250-12000/-on the basis of recommendation made by UPSC.

SHANKAR SINGH  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

D(MS)

No. 534, dated 21.10.2005.—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01st September 2005 :—

Honorary Army ADC (Inf)

IC-16900 Lt. Gen. Arvind Sharma, AVSM, VSM.

S D BANGA  
Under Secy

INTEGRATED HEADQUARTERS (NAVY)

No. 535, dated 19th October 2005.— The President is pleased to extend the appointment of the following officers of AFHQ Civil Service as Dy Director (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- under Rules 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 09.08.2005 to 08.02.2006, or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

- (a) Smt Neena Mishra
- (b) Shri AK Singh
- (c) Shri Hari Kishan
- (d) Shri Ashutosh Sinha
- (e) Smt Lalitha Kumar
- (f) Shri AK Sharma
- (g) Shri DC Tyagi
- (h) Shri AK Ahuja
- (i) Shri DJ Prasad
- (j) Shri RK Sahrawat

2. These appointments are made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

ARMY BRANCH  
REGULAR ARMY  
ARMY SERVICE CORPS  
(SUPPLY)

No. 536, dated 20.10.2005.— The President is pleased to make the following Promotions :—

To be Nb Subedar : SKT

Hav R Elumalai (No. 6384735W now JC-663363W), 01 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Sambasivam Pillai (No. 6385001F now JC-663364Y), 01 Feb 2005

Hav Heera Lal Jat (No. 6384212X now JC-663365F), 20 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay & allces)

Hav Sajith A (No. 6385006A now JC-663366K), 25 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allces)

Hav Jagdish Prasad Singh (No. 6385050K now JC-663367M), 11 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allces)

Hav Madan Mohan Mandal (No. 6385116P now JC-663368P), 24 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allces)

Hav Sajeevan Pillai J (No. 6385378L now JC-663369X), 14 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allces)

Hav Shaji Lal KS (No. 6385477N now JC-663370M), 12 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allces)

Hav Diyate Bhaskar Sambhaji (No. 6382701K now JC-663371P), 07 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Ram Bahal (No. 6384388H now JC-663372X), 13 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Kana Ram (No. 6385263X now JC-663373A), 02 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Soma Rajan KB (No. 6384996K now JC-663374H), 02 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Sudhakaran P (No. 6384582X now JC-663375L), 01 May 2005

Hav Dharambir (No. 6383767M now JC-663376N), 03 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Nilananda Jha (No. 6382739N now JC-663377W), 01 May 2005

Hav Rajavel S (No. 6383691X now JC-663378Y), 26 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Patil Ratnakant Dattaraya (No. 6385416W now JC-663379F), 01 May 2005

Hav Nalini Kanta Mishra (No. 6383203K now JC-663380W), 06 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav T Sri Rama Chandra Murty (No. 6384244A now JC-663381Y), 21 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Santhosh Varghese (No. 6383977M now JC-663382F) 02 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Siva Prasad B (No. 6384999X now JC-663383K), 26 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Satish Chandra (No. 6384296W now JC-663384M) 19 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Mujuvar Jannu (No. 6384094P now JC-663385P) 20 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Raj Kishore Singh (No. 6374836W now JC-663386X) 25 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Hav Jagdish (No. 6385327X now JC-663387A), 01 Jun 2005

Hav Rajendra Yadav (No. 6380952P now JC-663388H) 01 Jun 2005

Hav Manoharan Pillai B (No. 6385388P now JC-663405X), 17 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay & allces)

Hav Ishwar Prasad Yadav (No. 6385214P now JC-663406A), 25 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allces)

Hav Kashmir Singh (No. 6384725M now JC-663407H), 23 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Hav Anand Chandra Panda (No. 6383204M now JC-663408L), 29 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Hav Sasidharan Pillai R (No. 6384998P now JC-663409N), 18 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Raj Kumar Singh (No. 6383889W now JC-663410H), 13 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Arun Kumar Dubey (No. 6384385P now JC-663411L), 17 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Sudama Prasad Prajapati (No. 6385475H now JC-663412N), 01 Jul 2005

Hav Jai Kishan Singh (No. 6384281N now JC-663413W), 21 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Sunil Kumar (No. 6384151L now JC-663414Y), 07 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Gopa Kumar R (No. 6384974Y now JC-663415F), 05 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Ravindran P (No. 6384728A now JC-663416K), 01 Jul 2005

Hav Nanubrolu Srinivasa Rao (No. 6384099N now JC-663417M), 05 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Rajender (No. 6383478X now JC- 663418P), 01 Jul 2005\*

Hav Arun Singh (No. 6384404P now JC-663419X), 05 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Thomas KA (No. 6381201A now JC-663420M), 07 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Om Prakash Yadav (No. 6385289M now JC-663421P), 15 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Pawar Rama Chandra Nivrutti (No. 6383524F now JC-663521A), 06 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Ajitha Kumar R (No. 6383960Y now JC-663522H), 13 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allces)

Hav Raghav Singh (No. 6380155K now JC- 663523L), 01 Aug 2005

Hav Babu Lal (No. 6383315K now JC-663524N), 01 Aug 2005

Hav Kshirasagar Subhash Nanasaheb (No. 6384168Y now JC-663525W), 08 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allces)

To be Subedar Clk (GD)

Naib Subedar Prem Narayan Singh (JC-641526Y), 07 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Rattan Lal (JC- 641539W), 01 Mar 2005

Naib Subedar Rajendra Kumar Singh (JC-641542W), 01 Mar 2005

Naib Subedar Rajender Singh (JC-641658M), 01 Apr 2005

Naib Subedar Kunhikannan CK (JC-641786K), 01 Apr 2005

Naib Subedar Satish Chander Gaur (JC-641659P), 01 Apr 2005

Naib Subedar Deven CH Sahu (JC-641662P), 01 May 2005

Naib Subedar Chand Govind Singh (JC-641660K), 01 May 2005

Naib Subedar Rewat Singh Rana (JC-641661N), 02 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Harish Chander (JC-641537L), 01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Premakumaran Thampi D (JC-641538N), 01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Shyam Narayan Jha (JC-641663X), 17 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Samay Singh (JC-641664A), 16 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Manish Pradhan (JC-641667N), 15 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Brij Bhan Prasad Yadav (JC-641668W), 21 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Kuljeet Singh (JC-642012N), 14 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Jai Bhagwan (JC-641669Y), 13 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Lalman Prasad (JC-641671W), 11 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Suresh Kumar Pathania (JC-641787M), 07 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Karam Singh Jasrotia (JC-641670N), 21 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Suresh Chand Saini (JC-641672X), 20 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Unni Krishnan Paladan (JC-641788P), 21 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Uma Shankar Prasad (JC-641673F), 01 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Rakesh Kumar Singh (JC-641674K), 26 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Sudhakaran N V (JC-641790M), 01 Aug 2005

Naib Subedar Balwinder Pal Singh (JC-641792Y), 01 Aug 2005

Naib Subedar Rama Nand (JC-642013W), 01 Aug 2005

(MT & SUPPLY)

To be Subedar Major (MT)

Subedar Surya Kumar Tiwari (JC-661046W), 01 Feb 2005

Subedar Hem Raj Thakur (JC-661059N), 01 Mar 2005

Subedar Basappa Hatti (JC-661088H), 09 Mar 2005/01 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Mahendra Singh (JC-660982Y), 01 Apr 2005

Subedar Radhe Lal Chandra (JC-661060H), 02 May 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Ashok Kumar (JC-661182M), 09 May 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Shyam Bihari Tiwari (JC-661183P), 02 May 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Dinesh Singh (JC-661209Y), 17 May 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Shri Pati Ram (JC-661131Y), 01 Jul 2005

To be Subedar Major (PA)

Subedar Venkitachalam P (JC-640267P), 01 Apr 2005

Subedar Sudarshan Kumar (JC-640506P), 01 Jul 2005

To be Subedar Major Clk (GD/SD)

Subedar Mathias A (JC-640596L), 01 Feb 2005

Subedar Saseedran Kalantavita (JC-640605F), 01 Mar 2005

Subedar Sukhbir Singh (JC-640603W), 01 Mar 2005

Subedar Ram Nagar Yadav (JC-640765F), 01 Mar 2005

Subedar Jagdev Singh Dadwal (JC-640877F), 01 Mar 2005

Subedar Kapil Dev Singh Yadav (JC-640768P), 01 Mar 2005

Subedar G Augustine (JC-640604Y), 01 Mar 2005

Subedar Vinod Kumar Awasti (JC-640831Y), 01 Apr 2005

Subedar Vasudeva K K (JC-640830W), 01 Apr 2005

Subedar Ram Sajeevan Misra (JC-640823A), 01 Apr 2005

Subedar Kedar Singh (JC-640824H), 02 Apr 2005/01 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Ishtiyag Ali Khan (JC-640885A), 01 May 2005

Subedar Ram Lakhan Jaiswal (JC-640890L), 01 Jul 2005

Subedar Jawahar Singh Chahar (JC-640817M), 01 Jul 2005

To be Subedar Major Clk (GD)

Subedar Ajai Kumar Yadav (JC-640629L) 16 Feb 2005/01 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Dronacharya (JC-640474F), 01 Mar 2005

Subedar Niranjana Nayak (JC-640327Y), 01 Mar 2005

Subedar Mahendra Singh Shekhawat (JC-640633N), 01 Apr 2005

Subedar A Sekar (JC-640645H), 01 May 2005

Subedar Sushil Sengupta (JC-640639P), 03 May 2005/01 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Md Jabbar Ali (JC-640654K), 01 Jun 2005

Subedar Bharat Prasad Singh (JC-640648W), 01 Jun 2005

Subedar Subramonia Babu N (JC-640658A), 01 Jul 2005

To be Subedar Major (SKT)

Subedar Bhat Rooplal Pratap Dutt (JC-213692H), 14 Feb 2005/01 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Hukam Chand Chauhan (JC-213661H), 03 Mar 2005/01 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Kallyana Sankaran A (JC-213704M), 01 Mar 2005

Subedar Buben Chandra Borah (JC-213861Y), 01 Mar 2005

Subedar Chandra Keshwar Chaubey (JC-213843W), 01 Mar 2005

Subedar Ram Kishore Nigam (JC-213810L), 01 Mar 2005

Subedar Dayal Prasad (JC-213844Y), 01 Mar 2005

Subedar Lallan Mishra (JC-215512N), 01 Apr 2005

Subedar A Agustin (JC-215486X), 02 Apr 2005/01 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Magluri Sriman Narayana (JC-215510H), 18 Apr 2005/01 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar K Perumal (JC-215518P), 02 May 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Ganpat Lal (JC-215513W), 26 May 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Jagjit Singh (JC-215514Y), 07 Jul 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Dinesh Chandra Debnath (JC-215535P), 25 May 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar A Joseph (JC-215542L), 02 Jun 2005/01 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

Subedar Ashok Kumar Mishra (JC-215545Y), 18 Jul 2005/01 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

To be Subedar Major (Catr)

Subedar Shiv Vir Singh (JC-213429X), 05 Jul 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces).

## ANIMAL TRANSPORT

To be Substantive Risaldar (ASH)

Nb Ris Jagbir Singh (JC-680548N), 16 Feb 2005/01 Jan 2005\*

Nb Ris RK Verma (JC-680561X), 01 Mar 2005

Nb Ris Sudama Nand (JC-680569K), 01 May 2005

Nb Ris Mahadeo Singh (JC-680577H), 03 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Ris Shio Kumar Jha (JC-680578L), 09 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Ris Narendra Nath (JC-680579N), 16 Jul 2005/01 Jun 2005\*

Nb Ris K K Lohar (JC-680581L), 16 Jul 2005/01 Jun 2005\*

Nb Ris Balbir Singh (JC-680583W), 16 Jul 2005/01 Jul 2005\*

To be Substantive Naib Risaldar (ASH/AT)

Dfr Inder Dev Ram (No. 6471675H now JC-680778F), 07 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Dfr Prahlad Meena (No. 6471712M now JC-680779K), 31 May 2005/01 Apr 2005\*

Dfr Darshan Singh (No. 6471697F now JC-680782K), 07 Jul 2005/23 Apr 2005\*

Dfr DN Medhi (No. 6472515P now JC-680784P), 05 Jul 2005/12 Mar 2005\*

Dfr Vijayan AC (No. 6483971A now JC-680785X), 08 Jul 2005/23 Apr 2005\*

Dfr Brij Bihari Singh (No. 6471752M now JC-680787H), 04 Jun 2005/01 May 2005\*

Dfr Bhola Ram (No. 6471780Y now JC-680789N), 09 Jun 2005/01 May 2005\*

Dfr Vipin Kumar (No. 6471804X now JC-680797M), 18 Jun 2005/01 May 2005\*

Dfr PR Baro (No. 6482630H now JC-680795F), 13 Jun 2005/01 May 2005\*

Dfr Raj Pal (No. 6471841L now JC-680799X), 25 May 2005/01 May 2005\*

Dfr M Nanda Babu Singha (No. 6471856N now JC-680802M), 01 Jun 2005

Dfr Raghubir Singh (No. 6471857W now JC-680803P), 01 Jun 2005

To be Substantive Naib Risaldar (ASH)

Dfr MA Sab Desai (No. 6471864M now JC-680805A), 01 Jun 2005

Dfr Jag Ram Gurjar (No. 6471874W now JC-680801K), 07 Jul 2005/01 Jun 2005\*

Dfr Jagdish Prasad (No. 6471878P now JC-680806H), 01 Jun 2005

Dfr Ladu Ram (No. 6471881M now JC-680807L), 03 Jun 2005/01 Jun 2005\*

Dfr Pratap Singh (No. 6471882P now JC-680808N), 29 Jun 2005/01 Jun 2005\*

Dfr Maruti Laxman Huli (No. 6471888W now JC-680811N), 01 Jul 2005

Dfr Shyam Bihari Singh (No. 6471924W now JC-680813Y), 01 Jul 2005

Dfr Niranjana Sah (No. 6471930K now JC-680814F), 01 Jul 2005

Dfr Ram Pal (No. 6471934A now JC-680815K), 01 Jul 2005

Dfr R Kumar Choubey (No. 6471938W now JC-680816M), 01 Jul 2005

Dfr T Mariappan (No. 6471969W now JC-680818X), 01 Jul 2005

Dfr BB Mahanta (No. 6471994P now JC-680819A), 01 Jul 2005

\*(Gtd ante-date seniority without effect on pay and allces wef)

#### REGIMENT OF ARTILLERY

To be Naib Subedar (Clerk GD/SKsT)

Hav (Clk) Kanhaiya Prasad (No. 14474239F now JC-268288N), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Ram Mehar (No. 14350703M now JC-268339W), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Unnikrishnan PV (No. 14352540H now JC-268340L), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Bajrang Singh Rathore (No. 14353463L now JC-268418L), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Brajesh Kumar (No. 14473506L now JC-268341N), 01 Aug 2005

Hav (SKT) Vinod Singh Shishodia (No. 14489228M now JC-268342W), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Radha Krishna Pillai J (No. 14473598H now JC-268343Y), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Abdul Malik (No. 14357189W now JC-268344F), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Satbinder Singh (No. 14357470Y now JC-268345K), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Mahendra Pal Singh Chauhan (No. 14360059Y now JC-268419N), 02 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Hav (SKT) Shiv Kumar (No. 14489294P now JC-268346M), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Ram Singh (No. 14361503W now JC-268420H), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Yograj Sharma (No. 14477206F now JC-268347P), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Tek Chand (No. 14477887P now JC-268421L), 10 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Hav (Clk) Ramesh Kumar (No. 14371852N now JC-268422N), 03 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Hav (Clk) Subhash Chander (No. 14484875H now JC-268423W), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Daya Ram (No. 14372204X now JC-268348X), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Rajpal Singh (No. 14484884K now JC-268424Y), 04 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Hav (Clk) Ashok Kumar Srivastava (No. 14372210L now JC-268349A), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Vinod Kumar Chaturvedi (No. 14484903K now JC-268425F), 01 Aug 2005

Hav (Clk) Fakeer Nagaral (No. 14372225N now JC-268289W), 01 Aug 2005

Hav (SKT) Jet Singh (No. 14489360M now JC-268426K), 09 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Hav (Clk) Dharam Bir (No. 14361311Y now JC-268227W), 01 Jun 2005

Hav (Clk) Vijayan Kalarivayal (No. 14363207K now JC-268338N), 01 Jun 2005

Hav (Clk) Chandrappa HV (No. 14477838M now JC-268228Y), 01 Jun 2005

Hav (Clk) Subash Savant (No. 14478125N now JC-268229F), 01 Jun 2005

Hav (Clk) Satish Chandra (No. 14484178H now JC-268230W), 01 Jun 2005

Hav (SKT) Braham Prakash (No. 14355235F now JC-268231Y), 02 Jun 2005/01 Jun 2005\*

Hav (SKT) Brijbali Yadav (No. 14355521H now JC-268232F), 01 Jun 2005

Hav (SKT) Sita Ram (No. 14355782W now JC-268233K), 01 Jun 2005

Hav (SKT) Krishan Singh (No. 14374740Y now JC-268234M), 01 Jun 2005

Hav (SKT) Ganga Prasad (No. 14375061N now JC-268235P), 01 Jun 2005

Hav (SKT) Dilip Choudhary (No. 14375728K now JC-268236X), 01 Jun 2005

Hav (SKT) Muthukaruppa Samy K (No. 14488358H now JC-268237A), 01 Jun 2005

Hav (SKT) SV Vijay Kumar (No. 14377031P now JC-268287L), 01 Jun 2005

Hav (Clk) Mahesh Chandra Joshi (No. 14484190K now JC-268238H), 01 Jul 2005

Hav (Clk) Sumant Prasad (No. 14484209X now JC-268239L), 01 Jul 2005

Hav (Clk) Kailash Babu Pal (No. 14484509Y now JC-268240A), 01 Jul 2005

Hav (Clk) Jai Chand Singh (No. 14484522H now JC-268241H), 01 Jul 2005

Hav (Clk) Ravendra Kumar (No. 14371803L now JC-268242L), 01 Jul 2005

Hav (Clk) Rajesh Kumar (No. 14371841F now JC-268243N), 01 Jul 2005

Hav (Clk) Omkar (No. 14484640N now JC-268244W), 04 Jul 2005/01 Jul 2005\*

Hav (Clk) Ashok Kumar (No. 14484641Y now JC-268245Y), 01 Jul 2005

Hav (SKT) Kailash Chander (No. 14488723Y now JC-268246F), 01 Jul 2005

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces)

To be Nb Sub

Hav Hare Ram Singh (No. 14487935X now JC-268071K), 26 Apr 2005/01 Nov 2004\*

Hav Rabendra Singh (No. 14490012X now JC-268072M), 08 Apr 2004/26 Nov 2004\*

RHM Radha Krishnan P (No. 14364779X now JC-268073P), 22 Apr 2005/30 Nov 2004\*

Hav Yetendra Pal Singh (No. 14365031X now JC-268074X), 03 May 2005/01 Jan 2005\*

Hav Umesh Prasad (No. 14360042L now JC-268075A), 26 Apr 2005/01 Jan 2005\*

Hav Jeet Singh (No. 14479438Y now JC-268076H), 27 Feb 2005/01 Jan 2005\*

BHM Bhaskaran Chandra Konar (No. 14347874N now JC-268077L), 13 Feb 2005/01 Feb 2005\*

Hav Radhakrishnan V (No. 14365335A now JC-268078N), 04 Mar 2005/01 Feb 2005\*

Hav Angani Kumar Rai (No. 14361562H now JC-268079W), 21 Apr 2005/04 Feb 2005\*

Hav Jagtar Singh (No. 14479353H now JC-268080L), 27 Apr 2005/04 Feb 2005\*

Hav Jalbir Singh (No. 14363742K now JC-268081N), 26 Apr 2005/25 Feb 2005\*

RHM Ramesh Kumar (No. 14359850W now JC-268082W), 21 Apr 2005/01 Mar 2005\*

Hav Subhash Chand (No. 14366716N now JC-268083Y), 24 Jan 2005/01 Mar 2005\*

Hav Ram Sajivan Patel (No. 14363086N now JC-268084F), 26 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Hav Rambir Singh (No. 14379961P now JC-268085K), 04 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Hav Gopi TV (No. 14474341K now JC-268086M), 16 May 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd seniority wef)

#### CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar S Venkatesan (JC-296461H), 01 Jul 2005

Subedar Shyam Kumar Bhuyan (JC-296046F), 01 Aug 2005

Subedar Sivarajan R (JC-296751A), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar Major (TIFC)

Subedar Shaskaran AV (JC-221190P), 11 Aug 2005/01 Jun 2005\*

Subedar Mali Ram Gujar (JC-255294H), 01 Jun 2005

Subedar C Reddeppa (JC-256741N), 19 Jul 2005/01 Jul 2005\*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Sajan Kumar Singh (JC-298215W), 15 Jul 2005/13 Feb 2005\*

Nb Sub Jaimal Singh (JC-297998N), 15 Jul 2005/30 Mar 2005\*

Nb Sub Suresh Singh (JC-298327W), 29 Jul 2005/13 Apr 2005\*

Nb Sub Lohar Mininath Sidu (JC-297097F), 10 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Prokash Kripalani (JC-297671P), 03 May 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Madhusudan Behra (JC-298139P), 13 Jun 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Om Prakash Choudhary (JC-298262N), 01 Jul 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Kawal Singh (JC-298342L), 06 Jun 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Ami Lal (JC-298059X), 30 Jun 2005/08 Jun 2005\*

Nb Sub Kusumanchi Satyanarayana Murty (JC-297509X), 01 Jul 2005

Nb Sub Narendra Kumar Singh (JC-298038F), 01 Jul 2005

Nb Sub Gagan Singh (JC-298135Y), 01 Jul 2005

Nb Sub Bapooji (JC-298180L), 01 Jul 2005



Nb Sub Ananta Kumar Barman (JC-298198F), 20 Jul 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Johnson TJ (JC-298315F), 12 Jul 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Ramdeen Ram (JC-298524Y), 01 Jul 2005

Nb Sub Hira Lal Bhawaria (JC-298658X), 21 Jul 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Narayan Singh (JC-298191X), 09 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Mishal Soyaroba Kashinath (JC-298663H), 01 Aug 2005

To be Substantive Suhedar (TIFC)

Nb Sub Sadasivan Cheria Parambath (JC-298744H), 24 Aug 2005/01 Aug 2005\*

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Krishna Kumar Sharma (JC-297531H), 01 Aug 2005

Nb Sub Mehar Singh (JC-297626H), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Dharam Chand (JC-297774N), 15 Aug 2005/01 Aug 2005\*

\*(Gtd ante-date seniority wef)

M. M. SINGH  
Under Secy.

No. 537, dated 24 October 2005.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Lt Col (TS) to Lt Col

IC No., Name & Arm

IC-37757 A Acharya, Inf

IC-37766 RK Dixit, Inf

IC-37775 RK Rahul, Int

IC-37777 RJ Fernandes, Inf

IC-37779 Tejwant Singh, ASC

IC-37780 Josey George, Inf

IC-37785 NB Chinnappa, Inf

IC-37786 PK Pandit, Int

IC-37792 Ravinder Singh, Inf

IC-37798 AD Sanganagoud, Int

IC-37799 SS Bakshi, AOC

IC-37801 P Rawal, AC

IC-37806 MNM Babu, Sigs

IC-37808 J Mukherjee, Arty

IC-37821 PC Maithani, Inf

IC-37842 GDS Randhawa, AC

IC-37844 P Sree Kumar, Engrs

IC-37846 KRS Shukla, Arty

IC-37850 Sanjiv Mallick, AC

IC-37852 Rajesh Mishra, Inf

IC-37854 Rajeev Mathur, AC

IC-37878 NK Sharma, Arty

IC-37884 P Srivastava, AOC

IC-37896 Ramdutt Sharma, Inf

IC-37899 K Raja Vikrama, Sigs

IC-37904 S Praharaj, Sigs

IC-37905 Ashok Kumar, AOC

IC-37908 MC RK Nair, ASC

IC-37910 SS Kushwaha, Inf

IC-37912 P Kulshrestha, Inf

IC-37914 SP Vilekar, AC

IC-37916 S Bhattacharya, Arty

IC-37917 V S Yadav, Inf

IC-37927 S C Katoch, Inf

IC-37935 Narendra Singh, Mech Inf

IC-37942 T B Rana, Inf

IC-37948 M K Wadhawan, Arty

IC-37952 H G Khare, ASC

IC-37963 S K Sharma, Inf

IC-37965 Bhupinder Singh, ASC

IC-37971 Deepak Behl, ASC

IC-37976 S Surchand Singh, Sigs

IC-37980 R S Andrews, Arty

IC-37982 P K Yadav, AOC

IC-37989 Karam Jeet Singh, Arty

IC-37994 Manjeet Singh, AC

IC-39442 Rohit Shukla, AC

IC-39483 Purojit Roy, Inf

IC-39498 P Chandra, Inf

IC-39502 N D Chauhan, Inf

IC-39511 A K Prasad, Inf	IC-39723 N P S Mann, Inf
IC-39524 Prashanth Kumar, Arty	IC-39727 S Puri, AC
IC-39529 P V Yadav, Inf	IC-39728 Khangara Ram, Sigs
IC-39531 B J S Hansra, Inf	IC-39729 A K Satpathy, Inf
IC-39534 U C Dubey, AD Arty	IC-39730 Abir Choudhury, AD Arty
IC-39535 Arvinder Singh, Arty	IC-39731 R N Rampal, Arty
IC-39543 N S Lamba, AOC	IC-39732 K Rajagopalan, AD Arty
IC-39547 T C Dahiya, Int	IC-39733 S Y Aga, Arty
IC-39571 Ravindran K, AC	IC-39735 P K Roy, Arty
IC-39578 Abhaya Prakash, Arty	IC-39741 K R Suraraj, Arty
IC-39595 O P Chaudhary, AC	IC-39743 P S Sarna, Inf
IC-39597 S N Upgade, Arty	IC-39745 Ashokan K, Inf
IC-39599 D S Bhati, Int	IC-39748 R S Rana, AD Arty
IC-39612 T S Poonia, EME	IC-39752 S S Sarao, Int
IC-39615 Yashpal Jagia, Inf	IC-39755 B S Basraon, Inf
IC-39622 P L K Thomas, Mech Inf	IC-39757 K S S Rao, Arty
IC-39623 Punjab Singh, Inf	IC-39767 Tapesht Kanwar, Inf
IC-39629 Ram Kumar, Arty	IC-39768 S N Channa, Int
IC-39631 A R Sarkar, Arty	IC-39770 S C Das, Arty
IC-39635 A R Thapan, Arty	IC-39773 G P Singh, AD Arty
IC-39640 R K Mahindru, Inf	IC-39776 V K R R Pimple, Arty
IC-39641 M D Amanullah, AD Arty	IC-39778 A K Ghildyal, Inf
IC-39658 M Thayil, Inf	IC-39785 V Kumar, Arty
IC-39663 Deen Dayal, Inf	IC-39786 P K Sharma, AD Arty
IC-39667 A K Gupta, Inf	IC-39788 Uday Singh, Inf
IC-39670 Manvendra Mehta, AC	IC-39790 R Upadhyay, Arty
IC-39671 R S Ghotra, Arty	IC-39794 N S Pathania, ASC
IC-39674 L K Borah, ASC	IC-39800 Shrish Kamboj, AEC
IC-39684 B P Singh Kushwaha, AC	IC-39811 Vijai Singh, AEC
IC-39686 T S M V Nathan, Inf	IC-39821 Pala Ram, AEC
IC-39688 K K Tripathi, Inf	IC-39827 J S Dhiman, AEC
IC-39695 Satish Khatri, AC	IC-39852 Inder Mohan, AEC
IC-39713 K Uppal, Arty	IC-39856 P K Madan, AEC
IC-39714 P K Bathla, AOC	IC-39878 S S Goraya, ASC
IC-39717 Sudhir Sharma, Engrs	IC-39884 T K Paul, AC
IC-39718 R Ramath, Arty	IC-39891 R L Bijarnia, AD Arty
IC-39719 S Panchlochia, Inf	IC-39900 T S Kanwar, Inf
IC-39720 D D Sarma, Inf	IC-39923 Arvind Kant, Inf
IC-39721 K B Kaushal, Arty	IC-39933 D Samal, AD Arty

IC-39944 Atul Dutt, EME	IC-40193 S S Divakar, Arty
IC-39947 D S Nagil, Mech Inf	IC-40194 Om Prakash, Inf
IC-39957 P P Venugopalan, ASC	IC-40195 J S Choudhary, Inf
IC-39963 K P V Ravi, Arty	IC-40201 S Khurana, AC
IC-39973 R C S Arya, Inf	IC-40210 Shashi Thomas, Engrs
IC-39982 Malkiat Singh, Arty	IC-40213 Atul Kumar, Arty
IC-39983 G S Manhas, Arty	IC-40224 EPP Topno, Inf
IC-40024 J S Dhanoa, AC	IC-40225 Subhash Pal, Inf
IC-40029 A P Tanwar, Inf	IC-40226 T V S Murthy, Inf
IC-40038 Ravi Vig, Arty	IC-40228 Jagmohan Dhir, Inf
IC-40047 K T Mathew, Inf	IC-40230 N Khan, ASC
IC-40051 P S Dhillon, AC	IC-40236 R K Pandey, AD Arty
IC-40057 M Salim, Inf	IC-40237 V Rajendra, Arty
IC-40071 Inderjit Singh, Inf	IC-40241 Anil Kumar, Arty
IC-40085 M M Khan, Inf	IC-40247 R S Prasad, AC
IC-40086 N Singh, Arty	IC-40251 C S Mulgund, Arty
IC-40087 Yoshannani, Arty	IC-40252 Nitin Chopra, Arty
IC-40103 R S Sekhon, AC	IC-40255 R K Singh, ASC
IC-40108 S Choudhury, AOC	IC-40256 S Richard, AD Arty
IC-40117 Arunjit Singh, AC	IC-40260 Dharamvir Singh, Int
IC-40118 S S Patel, Sigs	IC-40261 Deepak Tripath, Arty
IC-40119 U C Sharma, Arty	IC-40269 A K Tomar, AEC
IC-40123 Hari Parmar, Inf	IC-40271 K M Mahapathi, AEC
IC-40129 S G R Chowdhury, AC	IC-40318 K K Kumar, Sigs
IC-40142 Jaivir Singh, Sigs	IC-40361 O S Sinsinwar, Arty
IC-40148 T V A Kumar, Mech Inf	IC-40372 Randhir Singh, AOC
IC-40160 A Mathur, Inf	IC-40386 D S Pandey, Inf
IC-40163 A K Shinde, AD Arty	IC-40392 K Mital, AC
IC-40169 P Shaheed, Inf	IC-40397 V S Patil, AOC
IC-40172 A K Singh, Arty	IC-40409 S V M Deshpande, Sigs
IC-40177 R S Chhetri, Inf	IC-40414 N Kumar, Inf
IC-40181 S K Chaudhary, Arty	IC-40418 Pawan Kumar, AOC
IC-40187 Kartar Singh, ASC	IC-40432 S K Niranjana, Inf
IC-40188 K D Prasad, Arty	IC-40444 Rajender Singh, Sigs
IC-40190 P S Kumar, AD Arty	IC-40449 B Talwar, AOC
IC-40191 Tek Singh, AOC	IC-40451 R K S Suhag, Inf
	IC-40452 Paramjit Singh, Arty
	IC-40455 S P Sharma, ASC
	IC-40456 Radhey Shyam, Inf

IC-40458 M H Dani, Inf	IC-40633 Ajit Singh, AOC
IC-40459 P K Royal, Inf	IC-40637 Indrajit Roy, Arty
IC-40460 B Bhakta Lekhak, Arty	IC-40642 Alok Mathur, EME
IC-40461 R Chopra, Inf	IC-40643 N S Aswal, Inf
IC-40473 P B Thapa, Mech Inf	IC-40644 P V Sitaram, ASC
IC-40477 V Venkateshwaran, Engrs	IC-40646 S Kumar, AOC
IC-40481 S K Singh, Mech Inf	IC-40706 Rachhpal Singh, AC
IC-40488 Mandhir Singh, Inf	IC-40733 G Joseph, Arty
IC-40491 A S Bajwa, AC	IC-40738 S K Laskar, Arty
IC-40494 S S Dubey, Arty	IC-40739 V K Kotwal, Inf
IC-40497 R B S Rawat, Inf	IC-40756 V Bhat, Int
IC-40502 A K Singh, Int	IC-40810 D S Bhati, Mech Inf
IC-40509 R R Panigrahi, Inf	IC-40816 V Karad, Inf
IC-40510 V K Sawant, ASC	IC-40820 John N Cyriac, Inf
IC-40525 B S Bhati, Arty	IC-40823 G S Danu, Inf
IC-40532 S S Gogi, Inf	IC-40827 A Kumar, Inf
IC-40541 P P N Pillai, AD Arty	IC-40829 Sanjay Dubey, ASC
IC-40544 S Kumar, Inf	IC-40823 Satish Kumar, Inf
IC-40547 A K Gupta, AD Arty	IC-40881 A Mukherjee, Arty
IC-40551 A S Negi, Inf	IC-40893 G Prasad, Arty
IC-40557 R A Bhad, Inf	IC-40896 V K Bhardwaj, Sigs
IC-40575 Raghbir Singh, Arty	IC-40898 P V Hari, Arty
IC-40587 Jai Singh, ASC	IC-40903 Najmul Ahasan, Sigs
IC-40589 T Hoda, AC	IC-40908 S Ghosh, Arty
IC-40595 Arvind Kumar Singh, AOC	IC-40910 Gumsor Ango, Inf
IC-40602 R R Verma, Arty	IC-40914 M K Mishra, ASC
IC-40603 R K Prasad, Arty	IC-40916 Vipin Bihari, Inf
IC-40606 Y R Reddy, Engrs	IC-40930 P K Biswas, Inf
IC-40608 R Rehsi, Engrs	IC-40935 R K Ravi, Inf
IC-40609 M N Ratha, AOC	IC-40942 D S Sodhi, Mech Inf
IC-40611 G R George, Inf	IC-40949 L V Ramana, Inf
IC-40613 G L Sharma, Inf	IC-40957 K K Bhatia, Engrs
IC-40619 P Gupta, Mech Inf	IC-40959 Arun Khanna, Inf
IC-40620 S Kumar, AD Arty	IC-40967 Vivek Saran, Inf
IC-40622 S S Bhullar, AC	IC-40969 Jawahar Mandal, Inf
IC-40625 K P Mishra, EME	IC-40970 Hardip Judge, AOC
IC-40629 A K Gairola, ASC	IC-40972 A K Singh, Int
IC-40630 P Chandra, Inf	IC-40983 D Baruah, Engrs
IC-40632 K Malleshi, Engrs	IC-40987 N Murli Dhar, Arty

IC-40988 Ravinder Singh, AOC	IC-41835 Anil Kumar, Engrs
IC-40990 Y Singh, Inf	IC-41837 Anil Bahl, EME
IC-40995 A K Verma, Inf	IC-41840 Ajay Mehta, AEC
IC-40997 R K Govil, Inf	IC-41842 J P George, AEC
IC-40998 Ranvir Singh, Arty	IC-42157 R R Narayanan, AD Arty
IC-41011 Albert Raj, EME	IC-42681 C V S Sehgal, Engrs
IC-41014 M L Tiwary, Arty	IC-42702 R Yadav, EME
IC-41017 R Sharma, Inf	IC-42705 R Mathu, Engrs
IC-41021 S Kumar, Arty	IC-42713 Krishan Chand, Engrs
IC-41027 P C Jha, AD Arty	IC-42714 S Ramesh, Sigs
IC-41029 M S Singh, Int	IC-42715 P A Bhikaji, Engrs
IC-41031 C Subramaniam, Inf	IC-42717 Deepak Dixit, EME
IC-41038 T Hussain, Inf	IC-42718 S K Pandey, Sigs
IC-41096 Dinesh Kumar Sharma, AD Arty	IC-42721 D R Vasantryao, Sigs
IC-41179 CS Salunkhe, Engrs	IC-42724 Deepak Rathore, Sigs
IC-41237 A S Manoharan, Sigs	IC-42728 Sarabjeet Singh, Sigs
IC-41270 Rajiv Bakshi, Engrs	IC-42730 Alok Goel, Engrs
IC-41313 Kedar Singh, Arty	IC-42731 I S Dhillon, Sigs
IC-41338 S Nanda, AD Arty	IC-42735 N U Sheikh, Engrs
IC-41371 R S Rehill, AD Arty	IC-42736 D S Dhillon, Engrs
IC-41382 R K Singh, Inf	IC-42737 D K Barthwal, Sigs
IC-41391 J S Thakur, Inf	IC-42743 S Banerjee, EME
IC-41405 D S Verma, ASC	IC-42746 R K Srivastava, Sigs
IC-41436 N S Sidhu, AEC	IC-45018 J K Pun, Inf
IC-41441 Pradeep Mathur, Sigs	IC-45027 Manmohan Bisht, AOC
IC-41443 D N Jha, AEC	IC-45030 A Sahai, AD Arty
IC-41446 Ram Kumar Dube, Sigs	IC-45032 B S Saini, Inf
IC-41447 S K Sharma, Sigs	IC-45038 Ashok Kumar, Inf
IC-41451 N C Shukla, AEC	IC-45039 O R Singh, Inf
IC-41454 G Mahadevan, Sigs	IC-45045 S K Bakshi, Arty
IC-41455 T V Subba Rao, Engrs	IC-45051 A R Varma, Inf
IC-41460 R N P Singh, EME	IC-45062 S Narayan, Inf
IC-41532 Y Shorot, AD Arty	IC-45078 A Chaudhury, AD Arty
IC-41562 P S Gangwar, AD Arty	IC-45079 S K Bhat, Arty
IC-41721 RS Garewal, AOC	IC-45081 Anuj Seth, Mech Inf
IC-41822 A K Chauhan, AEC	IC-45082 B S Kattarya, Inf
IC-41831 K V V Kumar, Engrs	IC-45084 D K Kaushik, Engrs
IC-41833 Narendra Kumar, AEC	IC-45087 Y S Guleria, ASC
IC-41834 R K Sharma, Sigs	IC-45089 M K Chaturvedi, Sigs

IC-45096 Amit Roy, AD Arty

IC-45098 B K Majumdar, Inf

IC-45099 Sanjeev Kumar, Inf

IC-45101 A P Srivastava, EME

IC-45102 S K Dhadwal, Inf

IC-45112 R Mehrotra, AC

IC-45131 R Gosain, Sigs

IC-45139 SDC Shaker, Arty

IC-45145 Feroz Khan, AC

IC-45157 P P S Sidhu, AC

IC-45166 Y P Sirha, EME

IC-45171 S S Pundir, Mech Inf

IC-45185 S Tripathi, AD Arty

IC-45230 J S Bhandari, AD Arty

IC-45268 Deepak Verma, AD Arty

IC-39278 B N Pandey, Arty

IC-46461 Dushyant Singh, Inf

IC-44185 Jayant Jaiswal, Arty

IC-43140 N S Chhabra, Arty

IC-43329 Dilbag Singh, Arty

IC-43410 Deepak De, Inf

IC-45472 Ashok Kumar, EME

—16 Dec 2004—

SL-4010 Surinder Singh, SL EMAE (SA)

SL-4013 Somanathan VA, SL EMAE (SA)

—18 Apr 2005—

## PERMANENT COMMISSION (SL)

Maj to Lt Col

SL-3131 Sat Paul Gangal, SL RO

SL-4130 Jagdev Singh Lange, SL QM

—16 Dec 2004—

CHANDER PARKASH

Dy. Dir.

MS-8C

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 538, dated 21st October 2005—The President is pleased to make the following promotion :—

Shri Krishan Kumar Katiyar, Scientist 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service at

ADRDE, Agra with effect from 01 July, 2005 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

Shri Bhupesh A Parate, Scientist 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service at ARDE, Pune with effect from 01 July, 2002 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

The undermentioned Scientist(s) 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service at SASE, Chandigarh with effect from 01 July, 2005 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

Shri S. K. Joshi

Shri Prem Datt

Shri Sanjay Kumar Dewali

The undermentioned Scientist(s) 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service at DARL, Pithoragarh with effect from 01 July, 2005 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

1. Shri V. K. Singh

2. Shri H. K. Pandey

The undermentioned Scientist(s) 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service at IRDE, Dehradun with effect from 01 July, 2005 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

1. Shri Sushil Kumar

2. Smt. Sunita

3. Shri Shabir Ahmed

4. Shri Nitin Agerwal

5. Shri Shailendra Singh Yadav

The undermentioned Scientist(s) 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service at ITR, Balasore with effect from 01 July, 2005 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

1. Shri Sandeep Chakraborty

2. Shri Anupam Kumar Shrivastava

3. Shri Soumen Murmu

4. Shri Pankaj Gupta

5. Shri P. Kannadasan

6. Shri Dipak Das

7. Shri Pradipta Roy

The undermentioned Scientist(s) 'B' to be Scientist 'C' in the Defence Research & Development Service at DEAL, Dehradun with effect from 01 July, 2005 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

1. Shri Parkash Chand

2. Shri Nitin Verma

with effect from 20.04.2005 in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500.

3. Shri Jeetendra Singh Hyanki

Shri Tsering Narboo, Admin. Officer, FRL, C/o 56 APO  
to be Senior Admin Officer Grade-II (Group 'A' Gazetted)J K KHADWAL  
Jt. Dir. (Pers)

No. 539, dated 21st October 2005—The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade w.e.f. 01 Sep 2005 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay scale of Promoted Grade
1.	S/Shri Mahesh Kumar	HQ-DSTD	To 'B'	To 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
2.	Rajinder Parshad	HQ-O & M	To 'B'	To 'C'	Do.
3.	Ramesh Chander	HQ-DCS	To 'A'	To 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-

2. The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' w.e.f. 01 Sep 2005 (F/N).

Sl. No.	Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay scale of Promoted Grade
1.	S/Shri Har Govind	HQ-DOP (Pers-6A)	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
2.	Harsh Mani	HQ-COAS	STA 'C'	TO 'A'	Do.
3.	Harish Bisht	HQ-HRD	STA 'C'	TO 'A'	Do.

B. B. SHARMA  
DD (Pers-1)

No. 540, dated 20 October 2005—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

**TERRITORIAL ARMY  
TERRITORIAL COMMISSION**

Capt Bharat Bhushan Mudgil, TA-41542, Engrs, 31 May 2004

B. EKKA  
Under Secy.

No. 541, dated 24th October 2005—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular

Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

IC-41263 Lt Col (TS) Chander Puri, EME, 03 Sep 2004 (AN)

IC-31456 Col (TS) D S Raghavan, Arty, 20 Dec 2004 (AN)

IC-36534 Col (TS) Henry Jude Mayne, Arty, 06 Mar 2005 (AN)

IC-45350 Lt Col Arun Kumar Pandey, AC, 04 Jan 2005 (AN)

IC-37503 Lt Col (TS) Anil Chandra Dutta, AC, 10 May 2003 (AN)

IC-39520 Maj Thenttu Swamy Naidu, ASC, 06 Oct 2004 (AN)

IC-35305 Col (TS) Hartaj Singh, ASC, 03 Feb 2005 (AN)

IC-42735 Lt Col Sheikh Neamat Ullah, Engrs, 14 Feb 2005 (AN)

IC-42701 Maj K Seshasai, Engrs, 30 Sep 2004 (AN)

IC-44241 Maj Anil Kumar, Engrs, 14 Oct 2004 (AN)

IC-37452 Lt Col Prabhat Kumar Chaturvedi, Engrs, 18 Nov 2004 (AN)

IC-42120 Lt Col Chander Kant Paruthi, Sigs, 04 Jan 2005 (AN)

IC-41739 Lt Col (TS) A R Prakash, Sigs, 15 Sep 2004 (AN)

IC-47699 Maj K N Srikar, Sigs, 29 Sep 2004 (AN)

IC-42227 Lt Col (TS) Gurmohan Singh, Sigs, 30 Sep 2004 (AN)

IC-40878 Lt Col (TS) R R Kamat, Sigs, 03 Nov 2004 (AN)

IC-42247 Lt Col Ganjam Srinivasacharyulu, Sigs, 31 Jan 2005 (AN)

IC-40791 Maj Sanjiv Sharma, M/Inf, 15 Dec 2004 (AN)

IC-39059 Lt Col Kishan Bir Singh Sirohi, M/Inf, 12 Aug 2004 (AN)

IC-41550 Lt Col Rajeev, SM, Inf, 08 Mar 2005 (AN)

IC-41015 Maj Sanjiv Saklani, Inf, 10 Jul 2004 (AN)

RC-809 Capt Dharan Singh Chahal, Inf, 06 Oct 2004 (AN)

IC-41600 Lt Col (TS) Surinder Pal Singh Minhas, Inf, 19 Oct 2004 (AN)

IC-42014 Lt Col (TS) Mathew Shibu George, Inf, 16 Oct 2004 (AN)

IC-57079 Capt Chetan Anand M, Inf, 15 Feb 2005 (AN)

IC-41586 Lt Col Neerav Bhatnagar, Inf, 08 Feb 2005 (AN)

IC-40146 Lt Col Susheel Pradhan, Inf, 17 Jan 2005 (AN)

R. K. SHARMA  
Jt. Director  
MS/PR

NAVY BRANCH  
INTEGRATED HQ (NAVY)

No. 542, dated 19th October 2005—On attaining the age of superannuation, the following officers of NHQ have retired from Government service from the dates mentioned against their names and transferred to Pension Establishment :—

Name	Date of Retirement	Date of transfer to Pension Establishment
S/Shri		
(a) V P Arora, SO	28.02.2005	01.03.2005
(b) S K Tugnait, SO	31.03.2005	01.04.2005
(c) S K Ahuja, PS	31.03.2005	01.04.2005
(d) S R Malhotra, PS	30.04.2005	01.05.2005
(e) D B Tiwari, Jt Dir (OL)	30.04.2005	01.05.2005
(f) J L Luthra, SO	31.05.2005	01.06.2005
(g) M C Verma, PS	30.06.2005	01.07.2005
(h) T N Mongia, SO	30.06.2005	01.07.2005
(j) D N Prabhakar, SO	30.06.2005	01.07.2005

SHANKAR SINGH  
Dy. Chief Administration Officer (A)